



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 23—अक्टूबर 29, 2010 (कार्तिक 1, 1932)
 No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23—OCTOBER 29, 2010 (KARTIKA 1, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची		पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं,	1425	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं,	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं,	977	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं),	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं,	5	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश,	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं,	1921	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं,	3063
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम,	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस,	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ,	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं,	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट,	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं,	8295
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं),	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस,	1295
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं),	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण,	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1425	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)2	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	977	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1921	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3063
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	8295
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1295
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2010

सं. 112-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए “सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार” प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. आईसी-50367 लेफ्टिनेंट कर्नल थांगजाम टिकेन्द्र सिंह, सेना मेडल, ग्रेनेडियर्स/16 असम राइफल
2. आईसी-64395 कैप्टन बसंत सेवदा, सेना मेडल, कवचित कोर/8 राष्ट्रीय राइफल

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 113-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए “सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार” प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. आईसी-51955 कर्नल कोलंकारा मोहन नायर, 7 मद्रास रेजिमेंट
2. आईसी-57241 मेजर विनोद कुमार, मराठा लाइट इन्फैंट्री/56 राष्ट्रीय राइफल
3. आईसी-57884 मेजर सुरीसेट्टी रमेश, तोपखाना रेजिमेंट/871 फील्ड रेजिमेंट
4. आईसी-61427 मेजर तथागत दत्ता, कवचित कोर/53 राष्ट्रीय राइफल
5. आईसी-62075 मेजर कुलदीप सिंह, सेना सेवा कोर/61 राष्ट्रीय राइफल
6. आईसी-62121 मेजर नीरज कोतवाल, सेना सेवा कोर/12 राष्ट्रीय राइफल
7. आईसी-62225 मेजर अनिल गौतम, तोपखाना रेजिमेंट/12 असम राइफल
8. आईसी-62371 मेजर मेजर अमित कुमार सिंह, सेना सेवा कोर/53 राष्ट्रीय राइफल
9. आईसी-63968 मेजर कमलेश कुमार, तोपखाना रेजिमेंट/13 राष्ट्रीय राइफल
10. आईसी-64024 मेजर कुबेर सिंह कार्की, कुमाऊं रेजिमेंट/50 राष्ट्रीय राइफल
11. आईसी-64108 मेजर उपिन्दर पाल सिंह, कवचित कोर/46 असम राइफल
12. आईसी-64894 मेजर संदीप सिंह, कुमाऊं रेजिमेंट/26 राष्ट्रीय राइफल
13. आईसी-65235 मेजर आदित्य कुमार देवरानी, शौर्य चक्र, तोपखाना रेजिमेंट/29 राष्ट्रीय राइफल
14. आईसी-65403 मेजर फरिद उर रेहमान, ब्रिगेड ऑफ दि गाइर्स/61 राष्ट्रीय राइफल
15. आईसी-65674 मेजर पुनीत सिंह अटवाल, 1 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
16. आईसी-66827 मेजर जोग अभिषेक सुरेश, जाट रेजिमेंट/12 असम रेजिमेंट
17. आईसी-67973 मेजर कुलदीप कुमार डबराल, 4/8 गोरखा राइफल
18. आईसी-68743 मेजर अविनाश राणा, 7 मद्रास रेजिमेंट
19. आईसी-41214 मेजर जगमाल सिंह वाघेला, शौर्य चक्र, 11 जाट रेजिमेंट
20. एसएस-41839 मेजर तेज प्रताप सिंह, 8 सिख रेजिमेंट

21. डब्ल्यूएस-00458 मेजर मिताली मधुमिता, सेना शिक्षा कोर/भारतीय दूतावास, काबुल
22. आईसी-67760 कैप्टन शहजेब शबीह, इंजीनियर्स कोर/54 राष्ट्रीय राइफल
23. एसएस-41660 कैप्टन ब्लेशन के डेनियल, सेना वायु रक्षा/10 राष्ट्रीय राइफल
24. एसएस-42448 कैप्टन गौतम कुमार, 12 बिहार रेजिमेंट
25. आईसी-69699 लेफ्टिनेंट संभव सागर, 19 मद्रास रेजिमेंट
26. आईसी-70331 लेफ्टिनेंट राहुल राणा, 3 कुमाऊं रेजिमेंट
27. आईसी-70923 लेफ्टिनेंट सौरभ सिरोही, 2 बिहार रेजिमेंट
28. जेसी-412867 सूबेदार आनन्द सिंह, 4 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
29. जेसी-413027 सूबेदार दलवीर सिंह मल्होत्रा, 4 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
30. जेसी-559562 सूबेदार बासु देव तुरी, 2 बिहार रेजिमेंट
31. जेसी-413372 नायब सूबेदार बलवीर सिंह, 1 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
32. जेसी-623840 नायब सूबेदार राजेश थापा, 4/8 गोरखा राइफल
33. 2785965 हवलदार पांचाल ईरप्पा धन्नप्पा, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री बटालियन
34. जी/3400147 हवलदार रमेश चन्द, 34 असम राइफल
35. 2793555 लांस हवलदार राजेश बी एस, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री बटालियन
36. 2792488 नायक सिरसत भानुदास एकनाथ, मराठा लाइट इन्फैंट्री/56 राष्ट्रीय राइफल
37. 2796299 नायक मोरे बजरंग नारायण, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री बटालियन
38. 2998657 नायक गिरवर, 19 राजपूत रेजिमेंट
39. 3187880 नायक कुलजीत कुमार, डोगरा रेजिमेंट/62 राष्ट्रीय राइफल
40. 4187374 नायक भीम सिंह, कुमाऊं रेजिमेंट/50 राष्ट्रीय राइफल
41. 13622515 नायक सेल्वा कुमार पी, 1 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल) (मरणोपरांत)
42. 13623415 नायक मनोज कुमार, 4 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
43. 2605201 लांस नायक प्रिंस जोसेफ, 7 मद्रास रेजिमेंट
44. 2691126 लांस नायक तेज राम मीणा, ग्रेनेडियर्स, 39 राष्ट्रीय राइफल
45. 2803900 लांस नायक पुंडकर संदीप गणपतराव, 12 मराठा लाइट इन्फैंट्री बटालियन
46. 3193999 लांस नायक माना राम, जाट रेजिमेंट/61 राष्ट्रीय राइफल
47. 4478918 लांस नायक बापुकन दास, 9 सिख लाइट इन्फैंट्री बटालियन

48. 12944107 लांस नायक देस राज, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल
49. 12944336 लांस नायक एजाज हुसैन, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/26 राष्ट्रीय राइफल
50. 12944663 लांस नायक निसार अहमद, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/10 राष्ट्रीय राइफल
51. 2496006 सिपाही जसवीर सिंह, पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल
52. 2498188 सिपाही बलविंदर सिंह, पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल
53. 2499738 सिपाही लखबीर सिंह, पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
54. 2607537 सिपाही सिनुमोन एस, 19 मद्रास रेजिमेंट
55. 2607994 सिपाही जी प्रबु, मद्रास रेजिमेंट/54 राष्ट्रीय राइफल
56. 2804362 सिपाही पांढरे मारुति महादेव, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
57. 2997779 सिपाही प्रवेश कुमार, राजपूत रेजिमेंट/10 राष्ट्रीय राइफल
58. 3001111 सिपाही ऋषिराज सिंह, 19 राजपूत रेजिमेंट
59. 3003613 सिपाही श्रवण सिंह, 9 राजपूत रेजिमेंट (मरणोपरांत)
60. 3202943 सिपाही अतुल कुमार, 11 जाट रेजिमेंट
61. 4427932 सिपाही लोगजम राम सिंह, असम रेजिमेंट/42 राष्ट्रीय राइफल
62. 12944396 सिपाही अजनेता लाल, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल
63. 13624561 सिपाही अविनाश कुमार, राजपूत रेजिमेंट/10 राष्ट्रीय राइफल
64. 14935024 सिपाही घुरना लिम्बू, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री/9 राष्ट्रीय राइफल
65. 2896969 राइफलमैन श्रीकांत, 5 (नेपियर्स) राजपूताना राइफल
66. 5756850 राइफलमैन नरेन्द्रा सौद केशेत्री 4/8 गोरखा राइफल
67. 9103699 राइफलमैन सुनील कुमार, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/10 राष्ट्रीय राइफल
68. 12974266 राइफलमैन मोहम्मद अब्बास तान्त्री, 162 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/42 राष्ट्रीय राइफल
69. 12974408 राइफलमैन मोहम्मद अमीन गानी, 162 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/42 राष्ट्रीय राइफल
70. 16013463 राइफलमैन रामेन्द्र सिंह बैश, राजपूताना राइफल/9 राष्ट्रीय राइफल

71. 16014974 राइफलमैन अजय कुमार, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
72. जी/2502052 राइफलमैन संगलुंग मौना, 25 असम राइफल
73. जी/2701836 राइफलमैन मानसा कुमार ओझा, 46 असम राइफल
74. जी/5000272 राइफलमैन के सानायार्इमा सिंह, 21 असम राइफल
75. 9113216 पैराट्रूपर इमित्याज एहमद ठोकर, 1 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल) (मरणोपरांत)
76. 13626673 पैराट्रूपर हजारी लाल गुर्जर, 1 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
77. 13626875 पैराट्रूपर लखविन्दर पाल सिंह, पैराच्यूट रेजिमेंट/31 राष्ट्रीय राइफल
78. 2693614 ग्रेनेडियर हरदेव सिंह, ग्रेनेडियर्स/39 राष्ट्रीय राइफल
79. 2695623 ग्रेनेडियर जय देव, ग्रेनेडियर्स/12 राष्ट्रीय राइफल
80. 15168087 गन्नर फल्टनकर दिवाकर दादुराम, तोपखाना रेजिमेंट/32 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 114-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए “नौसेना मेडल/नेवी मेडल” प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. कमांडर गंगुपोमु मुरली (03943-के)
2. लेफ्टिनेंट कमांडर अजय कनवर, (05240-एच)
3. राजन सिंह, सी-I सीडी-III (214217-एच)

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 115-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए “वायुसेना मेडल/एयरफोर्स मेडल” प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. विंग कमांडर सागर सिंह रावत (22711) उड़ान (पायलट)
2. स्क्वाड्रन लीडर अशोक कुमार (24900) उड़ान (पायलट)
3. स्क्वाड्रन लीडर अमित शर्मा (26545) उड़ान (पायलट)
4. स्क्वाड्रन लीडर विशाल मोहन (27475) उड़ान (पायलट)
5. स्क्वाड्रन लीडर रोहित राय (27992) उड़ान (पायलट)

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 116-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2010 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करती हैं :--

श्री एस वी रमण मूर्ति
अपर पुलिस महानिदेशक (समन्वय)
हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री वरुण सिन्धु कुल कौमुदी
पुलिस महानिरीक्षक
आर्थिक अपराध विंग, सी आई डी, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री तोटा वेंकट राव
कमांडेंट
10वीं बटालियन, ए पी एस पी, बीचपल्ली,
महबूबनगर
आन्ध्र प्रदेश

श्री नवाब इमदाद हुसैन
पुलिस महानिरीक्षक
विशेष कार्रवाई एकक, कहिलीपाड़ा, गुवाहाटी,
असम

श्री सुनील कुमार
अपर पुलिस महानिदेशक
एस सी आर बी पटना
बिहार

श्री महेन्द्र सिंह तोमर
उप पुलिस महानिरीक्षक
कांकेर रैंज, कांकेर,
छत्तीसगढ़

श्री पी एन अग्रवाल
विशेष पुलिस आयुक्त
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री राजा राम यादव
निरीक्षक
एस एच ओ जामा मस्जिद, केन्द्रीय जिला,
दरिया गंज, दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री तीर्थ राज
अपर निदेशक
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, अहमदाबाद
गुजरात

श्री यशपाल सिंगल
अपर पुलिस महानिदेशक
सी आई डी पंचकुला
हरियाणा

श्री सीता राम मरडी
पुलिस महानिरीक्षक
टी टी आर, पुलिस मुख्यालय, शिमला
हिमाचल प्रदेश

श्री अयजाज़ अली
पुलिस महानिरीक्षक
अपराध
जम्मू और कश्मीर

श्री एन अच्युता राव
अपर पुलिस महानिदेशक
महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय,
बैंगलोर
कर्नाटक

श्री कुनीगल श्रीकान्त
पुलिस अधीक्षक
लोकायुक्त जिला बैंगलोर देहात
कर्नाटक

श्री विन्सण एम पॉल
अपर पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, तिरुवनन्तपुरम
केरल

श्री अशोक दोहारे
पुलिस महानिरीक्षक
चयन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
मध्य प्रदेश

डॉ० (श्रीमती) आशा माथुर
पुलिस अधीक्षक
राजगढ़
मध्य प्रदेश

श्री तुकाराम आनन्दराव चव्हाण
पुलिस आयुक्त,
रेलवे मुम्बई,
महाराष्ट्र

श्री मधुकर हिरजी गावीत
अपर पुलिस आयुक्त
नागपुर शहर
महाराष्ट्र

श्री राजेन्द्र डाकोरजीभाई तांबत
सहायक पुलिस आयुक्त
तारदेव मंडल, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन
निरीक्षक
पूर्व जिला इम्फाल
मणिपुर

श्री वानकुपर खारखुंगर
उप पुलिस अधीक्षक
एस बी, मुख्यालय, शिलांग
मेघालय

श्री एल. रागनोना
उप पुलिस महानिरीक्षक
ऐजवाल
मिजोरम

श्री केल्हूसीथे कीरे
पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, कोहिमा
नागालैंड

श्री रमेश प्रसाद सिंह
अपर पुलिस निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक
आसूचना, कटक
उड़ीसा

श्री जितेन्द्र कुमार पात्र
पुलिस अधीक्षक
खुरदा
उड़ीसा

श्री लोक नाथ आँगरा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
गुरदासपुर
पंजाब

श्री सुरेश चौधरी
अपर पुलिस महानिदेशक
रेलवे जयपुर
राजस्थान

श्री के पी माघेन्द्रन
अपर पुलिस महानिदेशक
पुलिस अपराध, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री खत्र जय रियांग
कमांडेंट
प्रथम बटालियन, टी एस आर, गोकुलनगर,
पश्चिम त्रिपुरा
त्रिपुरा

श्री राम देव
अपर पुलिस महानिदेशक
सी बी सी आई डी, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री आलोक प्रसाद
मुख्य सतर्कता अधिकारी
भारतीय राजमार्ग राष्ट्रीय प्राधिकारी
नई दिल्ली

श्रीमती मिथलेश सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
सी बी सी आई डी पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री गणेश सिंह मर्तोल्या
कमांडेंट
46वीं बटालियन पी ए सी, रुद्रपुर
उत्तराखण्ड

श्री सुरजीत कर पुरकायस्थ
पुलिस महानिरीक्षक
कानून और व्यवस्था, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री शिशिर कुमार मिश्रा
महानिरीक्षक
बल मुख्यालय, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री रवि कुमार पुनोथ
उप महानिरीक्षक
एस टी सी, येलहंका, बेंगलोर
सीमा सुरक्षा बल

श्री भरत सिंह राणा
उप महानिरीक्षक
फ्रंटियर मुख्यालय, राजस्थान, डाकघर मंडोर रोड
जिला जोधपुर, सीमा सुरक्षा बल

श्री शैयद अब्दुल खादर
उप महानिरीक्षक
एस टी सी, चक्र, जिला लातूर, महाराष्ट्र
सीमा सुरक्षा बल

श्री राम सिंह मरकम
सैंकिड-इन-कमाण्ड
फ्रंटियर मुख्यालय, गुजरात, डाकघर चिलोदा रोड,
गांधीनगर
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुरेश कुमार कश्यप
पुलिस अधीक्षक
एस यू, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री हरिकेश
अपर पुलिस अधीक्षक
ए सी-11, नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी
अपर पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, रांची
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री शैख महबूब शरीफ
कमांडेंट
के आर टी सी, मुंडली, उड़ीसा
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री शिवाजी सिंह
उप निरीक्षक
यूनिट बी एस एल बोकारो
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री तल्लुरी भीमेश्वर राव
उप पुलिस महानिरीक्षक
बल मुख्यालय, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री आफताब अहमद खान
उप पुलिस महानिरीक्षक
सिलचर रेंज, दयापुर (असम)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रदीप कुमार बिश्वास
उप पुलिस महानिरीक्षक
सी आई ए टी स्कूल, दयापुर, सिलचर, असम
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम जन्म यादव
उप कमांडेंट
138वीं बटालियन, सिंकी व्यू, जिला पापुम्पारे,
अरुणाचल प्रदेश
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मंगल सिंह
अपर उप निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री रामस्वामी रघुनाथन
सहायक निदेशक,
चेन्नई
गृह मंत्रालय

श्री दीपक कुमार शर्मा
सहायक निदेशक
दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री गोपाल सिंह बिष्ट
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री मुरारी लाल
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री नवतेज सिंह
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री रणबीर सिंह शर्मा
उप महानिरीक्षक
सेक्टर मुख्यालय, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री ईशान प्रदीप
उप महानिरीक्षक (इंजीनियर)
उत्तर सीमान्त मुख्यालय, सीमाद्वार, देहरादून
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री एस. बंधोपाध्याय
महानिरीक्षक
सशस्त्र सीमा बल अकादमी, श्रीनगर
सशस्त्र सीमा बल

श्री के.एस.रावत
वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी (जी)
सेक्टर मुख्यालय, बोंगाईगांव
सशस्त्र सीमा बल

श्री ज्योतिर्मय चक्रवर्ती
महानिरीक्षक
सेक्टर मुख्यालय, नई दिल्ली
विशेष सुरक्षा समूह

श्री ललित कुमार
महानिरीक्षक
पश्चिमी रेलवे, मुम्बई
रेल मंत्रालय

2. ये पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक की मंजूरी को विनियमित करने वाले नियमों के नियम 4(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 117-राष्ट्रपति/2010—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2010 के अवसर पर उनकी सराहनीय सेवा के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान करती हैं :—

श्री के श्रीनिवास रेड्डी
अपर निदेशक
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

डॉ. ए रविशंकर
उप पुलिस महानिरीक्षक
करीमनगर रेंज, करीमनगर
आन्ध्र प्रदेश

श्री दासारी राम कृष्णन्हैया
पुलिस अधीक्षक
कृष्णा जिला मछलीपटणम
आन्ध्र प्रदेश

श्री कोप्पीसेट्टी वीर वेंकट गोपाल राव
पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था)
विशाखापटणम शहर
आन्ध्र प्रदेश

श्री बी वी रमण कुमार
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी
सुलतान बाजार, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री सौमित्रि माधवा चारी
अपर पुलिस अधीक्षक
पश्चिम गोदावरी, ऐलूर
आन्ध्र प्रदेश

श्री ई. अशोक कुमार
उप पुलिस अधीक्षक,
एपीपीए, हिमायत सागर, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री अड्डाला वेंकट रत्नम
सहायक पुलिस आयुक्त
विशेष शाखा साइबराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री किंजारपु वेंकट राम कृष्ण प्रसाद
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, विशाखापटणम
आन्ध्र प्रदेश

श्री कोलार कृष्ण
पुलिस निरीक्षक
पेनुकोंडा सर्कल जिला अनन्तपुर
आन्ध्र प्रदेश

श्री शिवकोटि बाबूराव
पुलिस निरीक्षक
आसूचना विभाग, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री चिलाका चिना साम्बशिव राव
रिजर्व निरीक्षक
1 बटालियन ए पी एस पी यूसुफगुडा,
हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री सैयद जमालुद्दीन
सहायक उप पुलिस निरीक्षक
काउंटर आसूचना सैल जिला महबूबनगर
आन्ध्र प्रदेश

श्री जी. उथन्ना
सहायक उप निरीक्षक
थाना अनन्तपुर टाउन
आन्ध्र प्रदेश

श्री सैयद हबीब
रिजर्व हैड कांस्टेबल
जी आर पी विशेष शाखा, सिकन्दराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री मालनीधी कृष्ण
उप निरीक्षक (एचसी) ओ/एस
आसूचना हैदराबाद क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश

श्री जेलदी अब्राहम
हैड कांस्टेबल
सी सी एस, गुंटूर
आन्ध्र प्रदेश

श्री शेषन अनबालागन
हैड कांस्टेबल
आसिफ नगर थाना, पश्चिम ज़ोन, हैदराबाद शहर
आन्ध्र प्रदेश

श्री कोटारी प्रसाद राव
पुलिस कांस्टेबल
बान्दा पल्ली थाना विज़ियानगरम जिला
आन्ध्र प्रदेश

श्री थुपतेन सीवांग लामा
अपर पुलिस अधीक्षक
मुख्य मंत्री सुरक्षा सैल, इटानगर
अरुणाचल प्रदेश

श्री जहीरुल हक
निरीक्षक (आर एम)
ए पी आर ओ गुवाहाटी शहर वी एच एफ कंट्रोल
असम

श्री दीनबन्धु दास
हवलदार
चौथी एपी बटालियन कहिलीपाड़ा, गुवाहाटी,
असम

श्री रामेश्वर कुर्मी
हवलदार
दूसरी एपी बटालियन मकुम, तिनसुकिया
असम

श्री निपेन दैमारी
लांस नायक (ए बी)
दूसरी एपी बटालियन मुकम, तिनसुकिया
असम

श्री धर्म नारायण आदित्य
कांस्टेबल
डी ई एफ हाफलांग पुलिस, रिजर्व, एन.सी.हिल्स
असम

श्री श्याम दास
कांस्टेबल
जोरहाट डी ई एफ
असम

श्री सुरेश प्रसाद चौधरी
कमांडेंट
बी एम पी एस-5, पटना
बिहार

श्री सुधीर कुमार
पुलिस अधीक्षक
सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो
पटना, बिहार

श्री अशोक कुमार सिन्हा
उप पुलिस अधीक्षक
बी एम पी-14, पटना
बिहार

श्री शिव कुमार झा
उप मण्डल पुलिस अधिकारी
फारबिसगंज, जिला अररिया
बिहार

श्री मोहम्मद नौशाद आलम
उप निरीक्षक
पुलिस मुख्यालय, पटना
बिहार

श्री राकेश कुमार
आशुलिपिक/ उप निरीक्षक
उप महानिरीक्षक का कार्यालय,
पटना, बिहार

श्री मुरारी मिश्र
हवलदार
भागलपुर
बिहार

श्री सुबोध सिंह
कांस्टेबल
पटना
बिहार

श्री कैलाश साहनी
कांस्टेबल
पटना
बिहार

श्री सोइकत भट्टाचार्य
सिपाही
विशेष शाखा पटना
बिहार

श्री उमेश ठाकुर
हवलदार
विशेष शाखा पुराना सचिवालय, पटना
बिहार

श्री सुनील कुमार सिंह
उप निरीक्षक
विशेष शाखा पटना
बिहार

श्री हेम कृष्ण राठौर
कमांडेंट
आठवीं बटालियन (आईआर) सी.ए.एफ राजनन्दगांव
छत्तीसगढ़

श्री संजीव शुक्ला
पुलिस अधीक्षक
मुख्य मंत्री की सुरक्षा, रायपुर
छत्तीसगढ़

श्री संजय शर्मा
पुलिस उप अधीक्षक
दांतेवाड़ा
छत्तीसगढ़

श्री विश्व प्रसाद देशमुख
उप निरीक्षक
एसआईबी पुलिस मुख्यालय रायपुर
छत्तीसगढ़

श्री श्याम लाल कोडोपी
हैड कांस्टेबल
जिला कांकेर
छत्तीसगढ़

श्री प्रमोद कुमार शर्मा
उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)
एसबी पुलिस मुख्यालय रायपुर
छत्तीसगढ़

श्री रूपिन्दर कुमार
पुलिस उपायुक्त
यातायात, केन्द्रीय रैंज, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री बलजीत सिंह बामेल
सहायक पुलिस आयुक्त,
भूमि और भवन सैल, पुलिस मुख्यालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री हरी सिंह बिष्ट
सहायक पुलिस आयुक्त
विभागीय जांच सैल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री जगमोदर सिंह
सहायक पुलिस आयुक्त
प्रथम बटालियन डीएपी, नई पुलिस लाइन, दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री गुरनाम सिंह रन्धावा
सहायक पुलिस आयुक्त
संसद मार्ग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री राजीव भटनागर
निरीक्षक
विभागीय जांच सैल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री राज कुमार सिंह
सहायक पुलिस आयुक्त
विशेष सैल, उत्तरी रैंज
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा
निरीक्षक
यातायात एकक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री नरसी दास
उप निरीक्षक
सुरक्षा एकक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री किशोरी लाल
उप निरीक्षक
पुलिस प्रशिक्षण कालेज, झड़ौंदा कलां
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्रीमती रोसलीन पूनम मिंज
महिला/ उप निरीक्षक
थाना - सी डब्ल्यू सी, नानकपुरा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री सुरेन्द्र सिंह
कांस्टेबल
पश्चिमी जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री बाबूराव ए. परब
पुलिस उप निरीक्षक
पी सी आर पोरवोरिम
गोवा

श्री ज्ञानेन्द्र सिंघ मलिक
अपर पुलिस आयुक्त
पुलिस भवन, वडोदरा,
गुजरात

श्री हसमुख कुमार नारायणभाई पटेल
उप पुलिस महानिरीक्षक
(योजना एवं आधुनिकीकरण) गांधीनगर
गुजरात

श्री मनोज शशीधर
उप पुलिस महानिरीक्षक
राजकोट रैंज, राजकोट
गुजरात

श्री अतुल करवल
संयुक्त पुलिस आयुक्त
शाहीबाग, अहमदाबाद
गुजरात

श्री रमणभाई खोडाभाई पटेल उप पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, पुलिस भवन सैक्टर-18, गांधीनगर, गुजरात	श्री अनिल कुमार राव पुलिस अधीक्षक रोहतक हरियाणा
श्री वज्रसिंह वखतसिंह राठोड उप पुलिस अधीक्षक पाटन, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, सिद्धपुर चार रास्ता, गुजरात	श्रीमती लक्ष्मी देवी निरीक्षक प्रभारी, ई ओ डब्ल्यू, सोनीपत हरियाणा
श्री भगवानभाई एम. चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त सूरत शहर गुजरात	श्री चन्द्र गुप्त प्रसाद सिंह उप निरीक्षक एस सी आर बी, मधुबन हरियाणा
श्री कालुमिया मरमिया मलेक पुलिस निरीक्षक पुलिस अपराध शाखा अहमदाबाद गुजरात	श्री मन्दरूप सिंह उप निरीक्षक एच पी ए मधुबन हरियाणा
श्री प्रताप सिंह दशरथ सिंह परमार पुलिस निरीक्षक बी मण्डल थाना भावनगर, गुजरात	श्री अतर सिंह उप निरीक्षक गुडगांव हरियाणा
श्री रहेमतुल्ला सवाइखान सिंधी पुलिस निरीक्षक सतर्कता स्कवॉड, जी.एस. गांधीनगर, गुजरात	श्री गणेश कुमार उप निरीक्षक एच पी ए मधुबन हरियाणा
श्री हमीदबीन अब्दुल्लाभाई आरब सशस्त्र पुलिस निरीक्षक “ए” कम्पनी एस आर पी एफ, जी आर.8, गोनदल, गुजरात	श्री सुभाष चन्द्र सहायक उप निरीक्षक एस वी बी मुख्यालय हरियाणा
श्री वसन्तकुमार रामकृष्ण सोनार उप पुलिस निरीक्षक पुलिस आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद, गुजरात	श्री जयपाल सिंह सहायक उप निरीक्षक एस वी बी मुख्यालय हरियाणा
श्री इलीयासमीया युसुफमीया ठाकोर निरस्त्र सहायक उप निरीक्षक स्थानीय अपराध शाखा आनन्द गुजरात	श्री दिलजीत कुमार ठाकुर पुलिस अधीक्षक एस वी बी और ए सी बी, एस आर, शिमला हिमाचल प्रदेश

श्री रत्न सिंह नेगी
कमांडेंट
पहली बटालियन, जुंगा, शिमला
हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश कुमार
अवैतनिक हैड कांस्टेबल
जिला हमीरपुर
हिमाचल प्रदेश

श्री शेख मुहम्मद
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
बारामूला
जम्मू और कश्मीर

श्री अब्दुल रशीद लोन
पुलिस अधीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक की सुरक्षा में सुरक्षा अधिकारी
जम्मू और कश्मीर

श्री मोहम्मद आमीन खान
कमांडेंट
आई आर पी 17वीं बटालियन जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री मनोहर लाल मेहरा
पुलिस अधीक्षक
ए एच जे जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री दवीन्दर पाल सिंह
पुलिस अधीक्षक
दूर संचार जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री गुलाम हैदर बन्धाना
पुलिस अधीक्षक
सतर्कता संगठन, श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर

श्री मुहम्मद युसुफ बंध
उप पुलिस अधीक्षक
एस डी पी ओ शहीद गंज, श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर

श्री शवीर अहमद खवाजा
उप पुलिस अधीक्षक
पुलिस मुख्यालय
जम्मू और कश्मीर

श्री असद उल्ला वट्ट
निरीक्षक
पी सी आर श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर

श्री फारुक अहमद शेख
निरीक्षक
अपराध शाखा, कश्मीर
जम्मू और कश्मीर

श्री महाराज करीशन वट्ट
उप निरीक्षक
सुरक्षा मुख्यालय
जम्मू और कश्मीर

श्री गुलाम मुहम्मद पाल
सहायक उप निरीक्षक
पुलिस मुख्यालय
जम्मू और कश्मीर

श्री मसूद एहमद मलिक
सहायक उप निरीक्षक
डी पी एल, श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर

श्री गिरधारी लाल
हैड कांस्टेबल
एस के पी ए ऊधमपुर
जम्मू और कश्मीर

श्री रिचर्ड लकड़ा
पुलिस अधीक्षक
गढ़वा
झारखण्ड

श्री भुवन राई
आशुलिपिक सहायक उप निरीक्षक
विशेष शाखा, रांची
झारखण्ड

श्री अनिल कुमार सिन्हा
सहायक उप निरीक्षक
फोटो अनुभाग विशेष शाखा, रांची
झारखण्ड

श्री पारस नाथ ओझा
उप निरीक्षक (आशुलिपिक)
एस टी एफ, धुर्वा, रांची
झारखण्ड

श्री ब्रजेश कुमार सिंह
कांस्टेबल
विशेष शाखा, रांची
झारखण्ड

श्री प्रदीप कुमार सुधांशु
कांस्टेबल
पुलिस मुख्यालय, रांची
झारखण्ड

श्री मोहम्मद वजीर अहमद
पुलिस महानिरीक्षक
डी सी आर ई.1, पैलेस रोड, बेंगलौर
कर्नाटक

श्री सैयद उल्फत हुसैन
उप पुलिस महानिरीक्षक
प्रशिक्षण और भर्ती, बेंगलौर
कर्नाटक

श्री सुभाष सी.गुडिमणि
अपर पुलिस अधीक्षक
बेंगलौर
कर्नाटक

श्री डी. पलकशैया
उप पुलिस अधीक्षक
आन्तरिक सुरक्षा प्रभाग, बेंगलौर,
कर्नाटक

श्री सातंडला हल्ली रेड्डपा विजयकुमार
सहायक पुलिस आयुक्त
शहरी अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, बेंगलौर,
कर्नाटक

श्री वी. गोविन्दैया
उप पुलिस अधीक्षक
चिंतामणि उप मण्डल, चिकबल्लापुरा,
कर्नाटक

श्री ए.आर. बाडीगर
उप पुलिस अधीक्षक
राज्य आसूचना हुबली
कर्नाटक

श्री चन्द्रशेखर बसन्ना होसाकेरी
उप पुलिस अधीक्षक
सी आई डी मुख्यालय, बेंगलौर,
कर्नाटक

श्री एम.प्रभु स्वामी
पुलिस उप अधीक्षक
अंगुलि छाप ब्यूरो, बेंगलौर,
कर्नाटक

श्री सी.आर. उदय शंकर
पुलिस उप अधीक्षक
पुलिस महानिदेशक नियंत्रण कक्ष, बेंगलौर,
कर्नाटक

श्री वजीर साहेब ताज अहमद
सिविल पुलिस निरीक्षक
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, सीआईडी, बेंगलौर,
कर्नाटक

श्री नारायण स्वामी
सहायक उप निरीक्षक
थाना येतहंका न्यू टाउन, बेंगलौर शहर,
कर्नाटक

श्रीमती नूरजहां
सहायक उप निरीक्षक (महिला)
जिला पुलिस कार्यालय बेल्तारी
कर्नाटक

श्री उन्नीभावी बासप्पा सिद्धराया
सहायक रिजर्व उप निरीक्षक
डी ए आर, बीजापुर,
कर्नाटक

श्री जी. वेंकटेश
हैड कांस्टेबल
नवीं बटालियन के एस आर पी, बेंगलूर,
कर्नाटक

श्री के.के. राघवन
सहायक उप निरीक्षक
बाडियाडका
केरल

श्री के.पी. सोमराजन
पुलिस महानिदेशक/ निदेशक
सतर्कता और भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, तिरुवनन्तपुरम
केरल

श्री आदर्श कटियार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री के.जी.जेम्स
कमांडेंट
के.ए.पी. तीसरी बटालियन आदूर,
ज़िला पथनमथिट्टा, केरल

श्री डी श्रीनिवास राव
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इन्दौर
मध्य प्रदेश

श्री एस शशिकुमार
पुलिस अधीक्षक
सीबी सीआईडी, मुख्यालय, तिरुवनन्तपुरम
केरल

श्री जी जनार्दन
उप महानिरीक्षक
खरगौन
मध्य प्रदेश

श्री पी. रघुवरन नायर
उप पुलिस अधीक्षक
कांजिरापल्ली,
केरल

श्री अनिल कुमार
अपर सचिव (गृह)
वल्लभ भवन, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री पी. अब्दुल हमीद
उप पुलिस अधीक्षक
सतर्कता और भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, मालाप्पुरम,
केरल

श्री रवि कुमार गुप्ता
पुलिस उप महानिरीक्षक
बालाघाट रेंज, बालाघाट
मध्य प्रदेश

श्री के.सतीशन
उप पुलिस अधीक्षक
सतर्कता और भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, पलक्काड,
केरल

श्री ओम प्रकाश मित्तल
पुलिस अधीक्षक
एस बी आई ईओ, ग्वालियर
मध्य प्रदेश

श्री वी.जे. थोमस
सशस्त्र पुलिस निरीक्षक
केएपी चौथी बटालियन मानंगट्टूपारम्बा,
केरल

श्री बलराम प्रसाद चन्द्रवंशी
पुलिस अधीक्षक
एस पी ई, सागर मण्डल, सागर
मध्य प्रदेश

श्री सी. राजेन्द्रन नायर
निरीक्षक
सी डब्ल्यू एस, दूरसंचार मुख्यालय, तिरुवनन्तपुरम,
केरल

श्री रामेश्वर दयाल खरे
अपर पुलिस अधीक्षक
बुरहानपुर, मध्य प्रदेश

श्री प्यारे लाल विश्वैया
उप पुलिस अधीक्षक
पुलिस योजना मुख्यालय, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री अशोक कुमार पाटिल
उप पुलिस अधीक्षक
फोटो, सी आई डी पुलिस मुख्यालय, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री विश्वनाथ सिंह तोमर
प्लाटून कमांडर, 29वीं बटालियन एस ए एफ
दतिया
मध्य प्रदेश

श्री राम किशोर तिवारी
कांस्टेबल, यातायात थाना,
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री दुर्गा प्रसाद चंदपुरिया
वरिष्ठ कांस्टेबल
एस बी आई ई ओ, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री मधु मंगल गौतम
निरीक्षक (एम)
विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री अरविन्द कुमार तिवारी
निरीक्षक (ओएस)
जी.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री धनंजय दत्तात्रय कमलाकर
अपर पुलिस आयुक्त
पुणे शहर
महाराष्ट्र

श्री संजीव कुमार सिंघल
अपर पुलिस आयुक्त
पुणे शहर
महाराष्ट्र

श्री संजय सक्सेना
अपर पुलिस आयुक्त
मुम्बई शहर
महाराष्ट्र

श्री आशुतोष करभारी डुम्बरे
अपर पुलिस आयुक्त
मुम्बई शहर
महाराष्ट्र

श्री देवेन भारती
अपर पुलिस आयुक्त
मुम्बई शहर
महाराष्ट्र

श्री छगन हिलाल वाकडे
पुलिस अधीक्षक
नागपुर देहात
महाराष्ट्र

श्री गजानन गोस्वामी जुईकर
सहायक पुलिस आयुक्त
यातायात शाखा, ठाणे शहर,
महाराष्ट्र

श्री विलास भीकाजी मराठे
सहायक पुलिस आयुक्त
वर्ली मंडल, मुम्बई शहर,
महाराष्ट्र

श्री बाबूराव महादेवराव देशमुख
सहायक आयुक्त
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो मुम्बई,
महाराष्ट्र

श्री महादेवराव नामदेवराव चह्माण
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक
थाना चतुश्रृंगी, पुणे शहर,
महाराष्ट्र

श्री युसुफ रमजान बागवान
पुलिस निरीक्षक
भिवंडी तालुका पुलिस थाना, ठाणे देहात,
महाराष्ट्र

श्री मोहम्मदरफ़ी चांदसाहेब खान
पुलिस निरीक्षक
एम.टी. औरंगाबाद
महाराष्ट्र

श्री राजेन्द्र रामप्रताप ठाकुर
पुलिस निरीक्षक
पुलिस थाना कस्तूरबा, मुम्बई शहर
महाराष्ट्र

श्री दिनकर भगवन्त गांगुर्डे
आसूचना अधिकारी
एस आई डी, नासिक
महाराष्ट्र

श्री चिन्तामन चिन्धा देवरे
सशस्त्र सहायक उप निरीक्षक
एस आर पी एफ जी आर.VI, धुले
महाराष्ट्र

श्री दत्तात्रय धोंडीबा डांगे
सहायक उप निरीक्षक
थाना नागरताल, अहमदनगर
महाराष्ट्र

श्री दत्तात्रय यल्लाप्पा हंडीफोड
सहायक उप निरीक्षक
मिराज शहर, पुलिस थाना-सांगली
महाराष्ट्र

श्री रामचंद्र दत्तात्रय चौगुले
सहायक उप निरीक्षक
पुलिस स्टेशन निर्मल नगर, मुम्बई शहर
महाराष्ट्र

श्री दिनकर चिन्तामन पाटील
सहायक उप निरीक्षक
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, जलगांव
महाराष्ट्र

श्री घनशाम गणपत आवारी
सहायक उप निरीक्षक
रेलवे नागपुर
महाराष्ट्र

श्री लहू पाटिलबुवा ढेरंगे
सहायक उप-निरीक्षक
रेलवे मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री नामदेव भिका जाधव
सहायक उप निरीक्षक
थाना पंचवटी, नासिक शहर
महाराष्ट्र

श्री तानाजी कोंडीबा भोसले
सशस्त्र सहायक उप निरीक्षक
एस आर पी एफ गट क्र. 3 जालना
महाराष्ट्र

श्री बाबाराव दौलतराव पाटील
सहायक उप निरीक्षक
वायरलैस ईस्ट जौन नागपुर
महाराष्ट्र

श्री रमेश प्रभाकर भवर
सहायक उप निरीक्षक
थाना पंचवटी, नासिक शहर
महाराष्ट्र

श्री गोविन्दन शशिधरण कोडप्पदथ
सशस्त्र सहायक उप निरीक्षक
एस आर पी एफ गट क्र. 3 जालना
महाराष्ट्र

श्री प्रताप वामन शिन्दे
हैड कांस्टेबल
यातायात नियंत्रण शाखा, मुम्बई शहर
महाराष्ट्र

श्री संभाजी सत्तू तलेकर
हैड कांस्टेबल
थाना शिरोल, कोल्हापुर,
महाराष्ट्र

श्री श्रीकृष्ण शामराव सोमण
हैड कांस्टेबल
पुलिस नियंत्रण कक्ष, यवतमाल
महाराष्ट्र

श्री कलमेश रामू सरोलकर
आसूचना अधिकारी
एस आई डी, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री सदाशिव वालू बोडके
हैड कांस्टेबल
एस बी(1) सी आई डी मुम्बई शहर
महाराष्ट्र

श्री अनिल कुमार दामोदर देशपाण्डे
पुलिस नायक
वायरलैस, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री मोहम्मद चाऔबा,
पुलिस निरीक्षक
थाना तिलोंग
मणिपुर

श्री वाहेगंबम बोरमणी सिंह
सूबेदार
दूसरी बटालियन एम आर, इम्फाल,
मणिपुर

श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रसाद
रिजर्व निरीक्षक
प्रथम एम एल पी, मावियोंग
मेघालय

श्री हीरा बहादुर थापा
एबी कांस्टेबल
प्रथम एम एल पी, मावियोंग
मेघालय

श्री आर.एस. लीयन तोगा
ओ.सी. स्पेशल
थाना नार्कोटिक्स, ऐजवाल
मिज़ोरम

श्री लालज्युथंगा
कांस्टेबल
डी ई एफ ऐजवाल,
मिज़ोरम

श्री रिचर्ड यिमटो
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
ज़िला लोंगलेंग
नागालैंड

श्री मेरेन जमीर
कमांडेंट
15 एन ए पी (आई आर) महिला बटालियन
चुमुकेडिमा नागालैंड

श्री सिद्धार्थ महादु नरभाने
पुलिस महा निरीक्षक
एच आर एण्ड एस जे पुलिस मुख्यालय कटक
उड़ीसा

श्री प्रफुल्ल चन्द्र बारिक
पुलिस अधीक्षक
नबरंगपुर
उड़ीसा

श्री गिरीश कुमार खटुआ
कमांडेंट
छठी बटालियन ओ एस ए पी, कटक,
उड़ीसा

श्री विजय कुमार दाश
उप पुलिस अधीक्षक
विशेष शाखा, पुरी
उड़ीसा

श्री गणेश कुमार साहू
उप कमांडेंट
एस ओ जी, भुवनेश्वर
उड़ीसा

श्री गोपाल चन्द्र नाथ शर्मा
निरीक्षक
विशेष शाखा, कटक
उड़ीसा

श्री निरंजन बेहरा
उप निरीक्षक
सतर्कता निदेशालय, कटक
उड़ीसा

श्री बिपिन बिहारी मिश्र
हवलदार
रिजर्व आफिस, कोरापुट
उड़ीसा

श्री शर्द सत्या चौहान
उप पुलिस महानिरीक्षक
जालंधर रैंज
पंजाब

श्री इंद्र मोहन सिंह
पुलिस अधीक्षक
मुक्तसर
पंजाब

श्री ओपिन्द्रजीत सिंह घूमण
सहायक पुलिस महानिरीक्षक
काउंटर इंटेलीजेंस, जालंधर
पंजाब

श्री अशवनी कपूर
सहायक पुलिस महानिरीक्षक
कार्मिक-II, चंडीगढ़
पंजाब

श्री धर्म सिंह उप्पल
पुलिस अधीक्षक
एस बी एस नगर,
पंजाब

श्री देस राज
उप पुलिस अधीक्षक
सतर्कता ब्यूरो, भटिंडा
पंजाब

श्री बलराज सिंह गिल
सहायक पुलिस आयुक्त
सहनेवाल, लुधियाना शहर
पंजाब

श्री लखबीर सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
सी आई डी यूनिट एस ए एस नगर (मोहाली)
पंजाब

श्री सुखजीत सिंह
निरीक्षक
प्रशिक्षण स्कूल प्रभारी, फतेहगढ़ साहिब
पंजाब

श्री दीपक राय
उप निरीक्षक
आसूचना मुख्यालय, चंडीगढ़
पंजाब

श्री मनजीत सिंह
उप निरीक्षक
पी आर टी सी, जहां खेलन
पंजाब

श्री अशोक कुमार
उप निरीक्षक
5 आई आर बी, अमृतसर
पंजाब

श्री सुखपाल सिंह
सहायक उप निरीक्षक
थाना राजपुरा शहर, जिला पटियाला
पंजाब

श्री हरजीत सिंह
हैड कांस्टेबल
पुलिस लाइन, मोगा
पंजाब

श्री अनिल पालीवाल
पुलिस उप महानिरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, जयपुर
राजस्थान

श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता,
अपर पुलिस अधीक्षक
सी आई डी (एस एस बी) जयपुर
राजस्थान

श्री ओम प्रकाश कटारिया
अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
जयपुर देहात
राजस्थान

श्री मोहम्मद फारुखी खाँ
उप पुलिस अधीक्षक
सर्किल अधिकारी झाडोल, जिला उदयपुर
राजस्थान

श्री रघुवीर सिंह
कम्पनी कमांडर
छठी बटालियन, आर ए सी धौलपुर
राजस्थान

श्री राजबहादुर सिंह सिकरवार
निरीक्षक (तकनीकी)
पुलिस दूर संचार, जयपुर
राजस्थान

श्री रहमान खान
उप निरीक्षक
एम.टी.ओ. पुलिस लाइन जोधपुर शहर
राजस्थान

श्री मान सिंह खाती
उप निरीक्षक
थाना अशोक नगर, जयपुर शहर (दक्षिण)
राजस्थान

श्री शिव लाल
सहायक उप निरीक्षक
पुलिस लाइन, जोधपुर शहर
राजस्थान

श्री अब्दुल मोइन खाँ
सहायक उप निरीक्षक
थाना इंगरपुर, जी आर पी अजमेर
राजस्थान

श्री रेवन्ता राम
हैड कांस्टेबल, आर ए सी न. 06
पी टी सी जोधपुर,
राजस्थान

श्री राजेन्द्र सिंह,
हैड कांस्टेबल
नौवी बटालियन, आर ए सी टोंक
राजस्थान

श्री देवी सहाय
हैड कांस्टेबल
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, जयपुर
राजस्थान

श्री महावीर सिंह राजपूत,
कांस्टेबल
5 बटालियन, आर ए सी घाट गेट, जयपुर,
राजस्थान

श्री अशोक कुमार सुंदास
अपर पुलिस अधीक्षक,
एस ए पी, पंगथांग, ईस्ट सिक्किम
सिक्किम

डॉ० सी के गांधीराजन
पुलिस महानिरीक्षक
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय
मुख्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु

श्री राजेश दास
पुलिस महानिरीक्षक
तट सुरक्षा समूह, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री के०पी० शनमुगराजेश्वरन
उप पुलिस महानिरीक्षक,
तिरुनवेली रेंज
तमिलनाडु

श्री आर इलांगो,
पुलिस अधीक्षक,
नागरिक आपूर्ति सी आई डी, मदुरई ज़ोन,
मदुरई, तमिलनाडु

श्री एम जोन चेलैया
अपर पुलिस अधीक्षक
पी ई डब्ल्यू, जिला थेनी
तमिलनाडु

श्री एम. जयरमन
उप पुलिस अधीक्षक
परियाकुलम उप मंडल जिला थेनी
तमिलनाडु

श्रीमती पी एस सावित्री
उप पुलिस अधीक्षक
नियंत्रण कक्ष, उप पुलिस महानिदेशक का कार्यालय
चेन्नई, तमिलनाडु

श्री एन. राजेन्द्रन
उप पुलिस अधीक्षक
वी एड ए सी, चेन्नै शहर-II, नंदनम, चेन्नई-35,
तमिलनाडु

श्री के० श्रीधरन
निरीक्षक
एस बी सी आई डी, त्रिची एयरपोर्ट इमीग्रेशन
तमिलनाडु

श्री पी राजकुमार
निरीक्षक
एस बी, सी आई डी मुख्यालय, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री टी. जानशेखर
निरीक्षक
वी. एण्ड ए.सी. कोयम्बतूर
तमिलनाडु

श्री जी. बालासुब्रमणियन
निरीक्षक
वी. एण्ड ए.सी. विशेष अन्वेषण सैल, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री आर पांडियराजन
निरीक्षक
वी.एण्ड ए.सी. शिवगंगाय
तमिलनाडु

श्री एस. रतिनवेलु
उप निरीक्षक
पुडुपेट थाना, कुडालोर जिला
तमिलनाडु

श्री वी. अमृतराज
उप निरीक्षक
वी एण्ड ए.सी., कन्याकुमारी
तमिलनाडु

श्री वी. वीरासामी
हैड कांस्टेबल
जिला विशेष शाखा सीआईडी, जिला तंजावुर
तमिलनाडु

श्री जी. कोदंडपानि
हैड कांस्टेबल
वी. एण्ड ए.सी. विशेष अन्वेषण सैल, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री विश्वनाथ देबबर्मा
पुलिस उप महानिरीक्षक
(प्रशासन और प्रशिक्षण), डाकघर एडी नगर,
अगरतला त्रिपुरा

श्री स्वपन कुमार डे
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार-निरोध-ब्यूरो, अगरतला
त्रिपुरा

श्री रतन कुमार देब
उप निरीक्षक
के.टी.डी.एस. पी टी सी, नरसिंहगढ़
त्रिपुरा

श्री गिरीश प्रसाद शर्मा
पुलिस महानिरीक्षक
अपराध, मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,
लखनऊ उत्तर प्रदेश

श्री दीपेश जुनेजा
उप पुलिस महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
आगरा
उत्तर प्रदेश

श्री राजीव सभरवाल
उप महानिरीक्षक
ए टी एस, जोन, इलाहाबाद, (लखनऊ में स्थित)
उत्तर प्रदेश

श्री घोलर प्रसाद कनौजिया
कमांडेंट
37 बटालियन पी ए सी, कानपुर नगर
उत्तर प्रदेश

श्री विनोद कुमार दोहरे
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
झांसी
उत्तर प्रदेश

श्री राम भरोसे
पुलिस अधीक्षक
बहराइच
उत्तर प्रदेश

श्री कमल कृष्ण शर्मा
उप पुलिस अधीक्षक
सी बी सी आई डी, मेरठ
उत्तर प्रदेश

श्री रमेश प्रताप सिंह
सहायक कमांडेंट
10वीं बटालियन, पी ए सी बाराबंकी
उत्तर प्रदेश

श्री चन्द्र शेखर गुप्ता
उप पुलिस अधीक्षक
पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी
उप पुलिस अधीक्षक
एल आई यू जिला फैजाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री अम्बेश चन्द्र त्यागी
उप पुलिस अधीक्षक
जिला गौतम बुद्ध नगर
उत्तर प्रदेश

श्री बाल किशोर त्यागी
सहायक कमांडेंट
43वीं बटालियन, पी ए सी एटा
उत्तर प्रदेश

श्री करार हुसैन
उप पुलिस अधीक्षक
जोनल ऑफिस आसूचना, अलीगढ़
उत्तर प्रदेश

श्री राम लाल राय
उप पुलिस अधीक्षक
जिला हरदोई
उत्तर प्रदेश

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा
उप पुलिस अधीक्षक
ई ओ डब्ल्यू मुख्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री उदयवीर सिंह खोखर
उप पुलिस अधीक्षक
जिला मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री पीटर विजय कुमार
उप पुलिस अधीक्षक
मुख्य मंत्री की सुरक्षा मै, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री भगवत सिंह मोतला
उप पुलिस अधीक्षक
पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ
उत्तर प्रदेश

श्री अयोध्या प्रसाद जाटव
उप पुलिस अधीक्षक
पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री रघुपाल सिंह
हैड कांस्टेबल
सी बी, सी आई डी मुख्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री राम नाथ सिंह
हैड कांस्टेबल
26वीं बटालियन पी ए सी, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश

श्री अब्दुल सलाम
हैड कांस्टेबल (एमटी)
30वीं बटालियन, पी ए सी, गोंडा
उत्तर प्रदेश

श्री कुलवन्त सिंह तोमर
प्लाटून कमाण्डर
9वीं बटालियन, पी ए सी, मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री हीरा लाल यादव
कांस्टेबल चालक
ज़िला लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री तनवीरुल हुसैन रिजवी
उप निरीक्षक (एम)
पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री मोहम्मद हयात खान
हैड कांस्टेबल (एम टी)
37वीं बटालियन, पी ए सी कानपुर
उत्तर प्रदेश

श्री राम ध्यान सिंह
उप निरीक्षक
महानिरीक्षक रैंज कार्यालय, वाराणसी
उत्तर प्रदेश

श्री परमेश्वर राम
हैड कांस्टेबल
ज़िला देवरिया
उत्तर प्रदेश

श्री जगत प्रकाश मिश्रा
कांस्टेबल
ज़िला हरदोई
उत्तर प्रदेश

श्री राधे श्याम सिंह
उप निरीक्षक
एल.आई.यू. कानपुर नगर
उत्तर प्रदेश

श्री कुशल पाल सिंह
उप निरीक्षक
यू पी पी सी एल, सर्तकता स्कन्ध, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री राम बहादुर,
उप निरीक्षक,
ज़िला मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश

श्री शिव राम कठेरिया
कांस्टेबल
ई ओ डब्ल्यू, सी आई डी, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश

श्री श्याम लाल
उप निरीक्षक
आई एन टी मुख्यालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश

श्री अजय रौतेला
कमाण्डेंट,
40वीं बटालियन, पी ए सी, हरिद्वार
उत्तराखण्ड

श्री जगदीश सिंह असवाल
उप पुलिस अधीक्षक
उत्तरकाशी,
उत्तराखण्ड

श्री अरविंद डंगवाल
निरीक्षक
सर्तकता मुख्यालय, देहरादून,
उत्तराखण्ड

श्री दिलीप बंदोपाध्याय
उप पुलिस आयुक्त
यातायात विभाग, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री वासव कुमार तालुकदार
उप पुलिस महानिरीक्षक
पुलिस मुख्यालय कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री सरोज कुमार गजमीर
वरिष्ठ उप पुलिस आयुक्त
बी.जी.लाइन तीसरी बटालियन के.ए.पी., कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन
निरीक्षक
थाना अलीपुर, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री सरल कुमार मित्रा
उप निरीक्षक
दक्षिण मंडल (एस टी एफ कोलकाता में
प्रतिनियुक्ति पर), पश्चिम बंगाल

श्री अबनी कुमार दास
निरीक्षक
आर आई, बी ई एफ लाइंस
पश्चिम बंगाल

श्री अलोक कुमार सान्याल
निरीक्षक
यातायात विभाग, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री साधन कुमार पतितुन्डि
उप निरीक्षक
6 बटालियन, के.ए.पी. बी जी लाइंस, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री सुधांशु शेखर बनर्जी
उप निरीक्षक
पुलिस थाना पारा, पुरुलिया
पश्चिम बंगाल

श्री नारायण चन्द्र घोष
हैड कांस्टेबल (चालक)
एम टी अनुभाग, बरहामपुर, मुर्शिदाबाद
पश्चिम बंगाल

श्री शान्ति चकलादार
सहायक उप निरीक्षक (ए बी)
पुलिस लाइंस, जिला कूच बिहार
पश्चिम बंगाल

श्री गोपाल देबनाथ
कांस्टेबल
आसूचना शाखा, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री रमेश चन्द्र शर्मा
सहायक उप निरीक्षक (सशस्त्र)
ब्रिगेडियर मुख्यालय बी.जी. लाइंस, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री भीम चौधरी
कांस्टेबल
पुलिस प्रशिक्षण कालेज, बैरकपुर
पश्चिम बंगाल

श्री तपन कुमार मजूमदार
सहायक उप निरीक्षक
एस ए पी दूसरी बटालियन, बैरकपुर, 24 उत्तर
परगना पश्चिम बंगाल

श्री प्रसून कुमार मुखर्जी
सहायक उप निरीक्षक
उप महानिरीक्षक (एमआर) का कार्यालय, नाडिया
पश्चिम बंगाल

श्री शहादत हुसैन
बिगुलर कांस्टेबल
मुख्यालय, मुर्शिदाबाद
पश्चिम बंगाल

श्री रघुनाथ साह
सशस्त्र सहायक उप निरीक्षक
डी ए पी पुलिस लाइन, मालदा
पश्चिम बंगाल

श्रीमती सविता बनर्जी
लेडी कांस्टेबल
डी आई बी, हुगली
पश्चिम बंगाल

श्री जॉर्ज लालू
सहायक कमांडेंट
आई आर बटालियन, पोर्ट ब्लेयर
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

श्री बी.सैगल
सहायक कमांडेंट
आई आर बटालियन, अनारकली हाइ, पोर्ट ब्लेयर
दक्षिण अंडमान
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

श्री हरदीप सिंह दून
पुलिस अधीक्षक
(सुरक्षा और यातायात), सैक्टर-9
चण्डीगढ़

श्री एम गिरीश कुमार
हेड कांस्टेबल
कावारत्ती
लक्षद्वीप

श्री नलिल्लाकरन हेमचन्द्रन
उप निरीक्षक
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय
पुदुचेरी

श्री दीप नारायण शर्मा
सूबेदार
कोहिमा, मार्फत 99 ए पी ओ
असम राइफल्स

श्री बलवन्त सिंह
स्टाफ ऑफिसर-3 (क्यू)
कीथलमन्बी, मुख्यालय-9, मणिपुर
असम राइफल्स

श्री बी. विजय कुमार
सहायक कमांडेंट
दीमापुर, 24 ए आर, मार्फत 99 ए पी ओ
असम राइफल्स

श्री राजेन्दर सिंह
बटालियन हवलदार मेजर
32 ए आर मार्फत 99 एपीओ, जालुकी, नागालैंड
असम राइफल्स

श्री रिम बहादुर थापा
सूबेदार
34 ए आर तेलियामूरा मार्फत 99 ए पी ओ
असम राइफल्स

श्री धन बहादुर सुनार
सूबेदार
34 ए आर मार्फत 99 ए पी ओ तेलियामूरा
असम राइफल्स

श्री जया प्रकाश एम.वी.
हवलदार/ नर्सिंग सहायक
असम राइफल्स अस्पताल
असम राइफल्स

श्री शशिधरन मटटाथाटिल
प्रशासनिक अधिकारी
(संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन हैती में तैनात)
असम राइफल्स

श्री सूब्रतो दास
वरिष्ठ निजी सचिव
शिलांग
असम राइफल्स

डॉ० भवानी शंकर पाण्डेय
महानिरीक्षक/ निदेशक (चिकित्सा)
आर.के.पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री परमिन्दर सिंह कैथ
उप महानिरीक्षक
फ्रंटियर मुख्यालय गुजरात, गांधी नगर
सीमा सुरक्षा बल

श्री एस. प्रकाश तिवारी,
कमांडेंट
टैक्नीकल विंग, सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर
सीमा सुरक्षा बल

श्री मुकुल श्रीवास्तव
कमांडेंट
बी टी सी, इन्दौर, बिजासन रोड, इन्दौर
सीमा सुरक्षा बल

श्री सतेन्द्रा सिंह तंवर
कमांडेंट
बी एस एफ एयरविंग, सफदरजंग एयरपोर्ट,
नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल

श्री प्रमोद कुमार यादव
कमांडेंट
11वीं बटालियन, डाकघर गांधीधाम, जिला - कच्छ,
गुजरात सीमा सुरक्षा बल

श्री चन्द्र प्रकाश त्रिवेदी
कमांडेंट
53वीं बटालियन, डाकघर आदीपुर गांधीधाम,
जिला कछ, गुजरात सीमा सुरक्षा बल

श्री यादवेन्द्रा मनि उपाध्याय
कमांडेंट
बल मुख्यालय, सी जी ओ कॉम्पलेक्स नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

डॉ. तपन विश्वास
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस जी)
कम्पोजिट अस्पताल, कोलकाता
सीमा सुरक्षा बल

श्री विजय सिंह यादव
कमांडेंट/ विधि अधिकारी ग्रेड-1
फ्रंटियर मुख्यालय कश्मीर मार्फत 56 एपीओ
सीमा सुरक्षा बल

श्री दीपक चतुर्वेदी
कमांडेंट/ विधि अधिकारी ग्रेड 1
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री एम पी एस राना
सैंकिंड-इन-कमांड
सैक्टर मुख्यालय, बांदीपुर मार्फत 56 एपीओ
सीमा सुरक्षा बल

श्री हरीश सिंह
सैंकिंड-इन-कमांड
सैक्टर मुख्यालय, उदयपुर, डाकघर-संतीर बाजार,
जिला त्रिपुरा (एस) सीमा सुरक्षा बल

श्री कुन्दन सिंह खत्री
उप कमांडेंट
80वीं बटालियन, सदकी रोड, फ्राजिल्का,
जिला फीरोजपुर, पंजाब सीमा सुरक्षा बल

श्री देवेन्द्र कुमार
उप कमांडेंट
153वीं बटालियन, सीकर, डाकघर-डी.बी.एन,
जिला गुरदासपुर, पंजाब
सीमा सुरक्षा बल

श्री एन प्रभाकरन
उप कमांडेंट
एस टी सी, येलहंका, डाकघर ए एफ एस, बेंगलौर
सीमा सुरक्षा बल

श्री भरत सिंह
उप कमांडेंट
109वीं बटालियन, डाकघर माधोपुर, जिला गुरदासपुर,
पंजाब सीमा सुरक्षा बल

श्री राजा राम सिंह,
उप कमांडेंट
60वीं बटालियन, डाकघर खाजूवाला, जिला बीकानेर,
राजस्थान सीमा सुरक्षा बल

श्री हरी कुमार चन्दा
उप कमांडेंट (सिविल)
फ्रंटियर मुख्यालय, कैम्पस, जालंधर कैंट, पंजाब
सीमा सुरक्षा बल

श्री मन मोहन सिंह
सहायक कमांडेंट
121वीं बटालियन, प्रहरी नगर, डाकघर अढ़ाई मील,
जिला पश्चिमी गारो हिल्स, मेघालय
सीमा सुरक्षा बल

श्री ताजिन्दर सिंह
सहायक कमांडेंट
45वीं बटालियन, भोंडसी, जिला गुडगांव, हरियाणा
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजगोपालन नायर
सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय)
सी एस डब्ल्यू टी इन्दौर, बिजासन रोड, इन्दौर
सीमा सुरक्षा बल

श्री ओम प्रकाश मलिक
अनुभाग अधिकारी
प्रशिक्षण निदेशालय बल मुख्यालय,
सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल

श्री परम सिंह
निरीक्षक
37वीं बटालियन, डाकघर-धुबुलिया, जिला नाडिया,
पश्चिम बंगाल सीमा सुरक्षा बल

श्री रामजी पाँडे

निरीक्षक

94वीं बटालियन कल्याणी, जिला नाडिया,

पश्चिम बंगाल सीमा सुरक्षा बल

श्री परमाशिवा रामाइया

निरीक्षक

82वीं बटालियन, डाकघर-काराहल्ली, बेंगलौर

सीमा सुरक्षा बल

श्री राय सिंह

निरीक्षक

66वीं बटालियन, बाडमेर रोड, जैसलमेर, राजस्थान

सीमा सुरक्षा बल

श्री नारायण सिंह

निरीक्षक

99वीं बटालियन, दांतेवाड़ा

सीमा सुरक्षा बल

श्री आन सिंह बिष्ट

निरीक्षक

107वीं बटालियन, डाकघर बी एस एफ कैम्पस,

चिलोदा रोड गांधीनगर, सीमा सुरक्षा बल

श्री इट्टीमाट्टाथिल शिवरामन मोहनन

निरीक्षक (अनुसचिवीय)

एस टी सी, डाकघर-येलहंका, ए एफ एस, बेंगलौर

सीमा सुरक्षा बल

श्री राजिन्द्र सिंह पठानिया

निरीक्षक (अनुसचिवीय)

फ्रंटियर मुख्यालय, कोलकाता

सीमा सुरक्षा बल

श्री मुलाक्कल गोविन्दन विमलन

निरीक्षक/ वैयक्तिक सहायक

सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर,

गुवालियर (मध्य प्रदेश) सीमा सुरक्षा बल

श्रीमती सुदेश रोडे

आशुलिपिक ग्रेड-11

प्रोव. निदेशालय, बल मुख्यालय, नई दिल्ली

सीमा सुरक्षा बल

श्री सूरज मल

उप निरीक्षक

153वीं बटालियन, सीकर, डाकघर-डेरा बाबा नानक,

जिला गुरदासपुर, सीमा सुरक्षा बल

श्री हेमन्त कुमार राय

उप निरीक्षक

42वीं बटालियन, सीमानगर, जिला-नाडिया

(पश्चिम बंगाल) सीमा सुरक्षा बल

श्री राजनाथ सिंह

उप निरीक्षक

100वीं बटालियन, डाबला, जैसलमेर, राजस्थान

सीमा सुरक्षा बल

श्री सोहन लाल

उप निरीक्षक

सैक्टर मुख्यालय बीकानेर, सागर रोड, राजस्थान

सीमा सुरक्षा बल

श्री इन्दर सिंह

उप निरीक्षक

उप महानिरीक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली

सीमा सुरक्षा बल

श्री अरविन्द कुमार दास

उप निरीक्षक (फार्मासिस्ट)

कम्पोजिट अस्पताल, टी सी एण्ड एस, हजारी बाग,

झारखण्ड सीमा सुरक्षा बल

श्री अब्दुल माजिद खान

हेड कांस्टेबल

82वीं बटालियन, डाकघर-काराहल्ली, बेंगलौर

सीमा सुरक्षा बल

श्री मिहिर लाल हज़ंग

कांस्टेबल/ रसोइया

सी एस डब्ल्यू टी इन्दौर, इन्दौर, म.प्र.

सीमा सुरक्षा बल

श्री मतिन्द्रा मार्क

कांस्टेबल (भिश्ती)

82वीं बटालियन, डाकघर काराहल्ली, बेंगलौर

सीमा सुरक्षा बल

श्री दुरैयास्वामी ए
कांस्टेबल (धोबी)
एस टी सी, येलहंका, डाकघर-ए एफ एस, बेंगलौर
सीमा सुरक्षा बल

श्री त्रिलोक चन्द सिंह
सफाई कर्मचारी
64वीं बटालियन, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर
सीमा सुरक्षा बल

श्री सैयद जावेद मुजतवा गिलानी
उप निदेशक (प्रशासन)
मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सुजीत पाण्डेय
उप पुलिस महानिरीक्षक
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री हेमोनलंग नोंगपलूंग
उप पुलिस महानिरीक्षक
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, गुवाहाटी
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री हरीश चन्दर शर्मा
अपर पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, शिलांग
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सुशील प्रसाद सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, पुणे
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री प्रशान्त कुमार पाण्डे
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, रांची
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री रोशन लाल यादव
निरीक्षक
ई ओ यू-VII, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्रीमती सुरेश बालयान कुमरा
निरीक्षक
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, मुम्बई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्रीमती शमा मारुफ
निरीक्षक
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, देहरादून
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री एस. पदमानाथन
उप निरीक्षक
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, चेन्नई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सम्भूनाथ दास
उप निरीक्षक
एस सी बी, कोलकाता
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री पान सिंह बिष्ट
हैड कांस्टेबल
ईओ-II, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री वासु कविदास
हैड कांस्टेबल
मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री एस रवि
कांस्टेबल
एस सी बी, चेन्नई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री ओम प्रकाश बिश्नोई
कांस्टेबल
मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री जितेन्द्र सिंह नेगी
वरिष्ठ कमांडेंट
यूनिट सी एस आई ए (एम)
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री नन्द गोपाल गुप्ता
वरिष्ठ कमांडेंट
यूनिट आर ए पी एस/ एच डब्ल्यू पी,
डाकघर-अणुशक्ति, जिला चित्तौड़गढ़
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री हेम राज गुप्ता
वरिष्ठ कमांडेंट
यूनिट डी एम आर सी, शास्त्री पार्क, नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एम राजेन्द्रन
कमांडेंट
यूनिट आई एस पी नासिक, महाराष्ट्र
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राजन रामास्वामी
कमांडेंट
सी टी पी एस चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो, झारखण्ड
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री नवल कुमार
उप कमांडेंट
यूनिट सी एस आई एअरपोर्ट मुम्बई
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री गगन बिहारी राउत
निरीक्षक
यूनिट बी एस एल, बोकारो
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री टी.पी.राघवैया
निरीक्षक
यूनिट, एन एल सी, नेवेली, जी-14,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बंशी धर सतपथी
उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)
यूनिट, बी एस एल बोकारो
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एन.डी.राजन
उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)
एन जैड मुख्यालय, साकेत, नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मारकण्डे पाण्डेय
उप निरीक्षक
बी सी सी एल सी सी डब्ल्यू ओ, धनबाद
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री जय प्रकाश राम
सहायक उप निरीक्षक
सी एस आई एअरपोर्ट मुम्बई
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री नकुल चन्द्र मण्डल
सहायक उप निरीक्षक
यूनिट ऑयल दुलियाजान, जिला-डिब्रूगढ़, असम
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री विजय कुमार
हैड कांस्टेबल
सी एस आई एअरपोर्ट, मुम्बई
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री पी.कुप्पन
हैड कांस्टेबल
यूनिट एन एल सी, नेवेली, जी 14
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एस. नागभूषणम
हैड कांस्टेबल
आर टी सी अराक्कोणम, डाकघर सुरक्षा कैम्पस,
जिला-वेल्लोर (तमिलनाडु)
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री देवा कांत नियोग,
हैड कांस्टेबल
यूनिट ऑयल दुलियाजान, जिला-डिब्रूगढ़, असम
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सिंगमनेवी वेंकटेश्वरा राव,
हैड कांस्टेबल
यूनिट आर सी एफ एल, मुम्बई
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री गजराज सिंह,
हैड कांस्टेबल
एन आई एस ए, हैदराबाद,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

डॉ० अनिल कुमार धवन
महानिरीक्षक/ निदेशक (चिकित्सा)
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सिकंदर
उप पुलिस महानिरीक्षक,
ग्रुप सेंटर, इलाहाबाद
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गौतम कुमार दत्ता
उप पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, पूर्वी सैक्टर,
सॉल्ट लेक, कोलकाता
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ताज मोहम्मद,
उप पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय,
उत्तर पश्चिमी सैक्टर
चडीगढ़
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री महावीर सिंह शेखावत,
उप पुलिस महानिरीक्षक,
ग्रुप सेंटर, नीमच,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

डॉ० प्रेम नारायण,
उप महानिरीक्षक(चिकित्सा),
कम्पोजिट अस्पताल, इलाहाबाद,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

डॉ० सुखदेव सिंह,
उप महानिरीक्षक (चिकित्सा),
कम्पोजिट अस्पताल, दयापुर, डाकघर-ऊधरबन्द,
जिला- सिल्चर,
असम, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

डॉ० (श्रीमती) एस० सुजाता,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (एन एफ एस जी)
कम्पोजिट अस्पताल, रंगारेड्डी,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री उमेश बाबू मिश्र
कमांडेंट
69वीं बटालियन, इम्फाल, मणिपुर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के.राजेन्द्रन
सैंकिड-इन-कमांड
जी सी, पल्लीपुरम, तिरुवनन्तपुरम, केरल
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री देशराज
सैंकिड-इन-कमांड
191, देसाईगंज, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जगत सिंह अहलावत
सैंकिड-इन-कमांड
140वीं बटालियन, औद्योगिक क्षेत्र, कुमारघाट,
उत्तरी त्रिपुरा
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रनबीर सिंह जग्गी
सैंकिड-इन-कमांड
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय,
मणिपुर और नागालैंड सेक्टर, इम्फाल
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एन.शशि कुमार
सैंकिड-इन-कमांड
तीसरी बटालियन, श्रीनगर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मधू भूषण शर्मा
उप कमांडेंट
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ऋषिकेश सिंह चौहान
उप कमांडेंट
27वीं बटालियन, बवाना कैंप, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मनफूल सिंह यादव
उप कमांडेंट
ग्रुप सेंटर, नीमच
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कनवर सिंह
उप कमांडेंट
74वीं बटालियन, भूपनगर, किशतवाड़
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ए.पी. अदन्तया
सहायक कमांडेंट
प्रथम सिगनल बटालियन, झड़ौदा कलां, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एन.डी.मैथ्यू
सहायक कमांडेंट
26वीं बटालियन पुराना कोर्ट परिसर बोकारो, झारखण्ड
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री हरीश बाबू
सहायक कमांडेंट
तीसरी सिगनल बटालियन, सॉल्ट लेक कोलकाता
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रामफूल शर्मा
सहायक कमांडेंट
16वीं बटालियन, सिविल लाइन, मथुरा (30प्र0)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के वी मधुसूदनन
संयुक्त सहायक निदेशक
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री स्वर्ण सिंह
अनुभाग अधिकारी
बल मुख्यालय, प्रशिक्षण शाखा, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री हेम राज शर्मा
प्रशासनिक अधिकारी
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय,
त्रिपुरा, सेक्टर मुख्यालय, अगरतला
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री वडक्के कारा गोपालाकृष्णन
वरिष्ठ निजी सचिव
बल मुख्यालय, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मुसैद सईद हुसैन
निरीक्षक
180वीं बटालियन ट्राल,
ज़िला पुलवामा मार्फत 56 एपीओ
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मोहम्मद सलीम
निरीक्षक
170वीं बटालियन बीजापुर, छत्तीसगढ़
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री नसीब सिंह
निरीक्षक
ग्रुप सेंटर पिंजौर, हरियाणा
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दर्शन कुमार
निरीक्षक (क्रिप्टो)
बी/5 सिगनल बटालियन बनतालाब
(जम्मू और कश्मीर)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एस.वरा प्रसाद राव
निरीक्षक (क्रिप्टो)
डी/5 सिगनल बटालियन मार्फत 56 ए पी ओ
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्रीमती गीताम्मा एस.
निरीक्षक (महिला)
88 (महिला) बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के.राघवन विक्रमन नायर
उप निरीक्षक
ग्रुप सेंटर, येलहंका, बेंगलूर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री पतिराम सिंह यादव
उप निरीक्षक
दूसरी बटालियन, शबरी नगर, दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दूधेश्वर सिंह
उप निरीक्षक
79वीं बटालियन, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गोपाल चन्द्र कर
उप निरीक्षक
139वीं बटालियन, नारायणपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री हरी सिंह
उप निरीक्षक
केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, नीमच (म०प्र०)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री माली राम शर्मा
उप निरीक्षक
रन.ई. सेक्टर, शिलांग
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रसन्न कुमारन नायर
उप निरीक्षक
78वीं बटालियन जुबजा, कोहिमा, नागालैंड
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मदन लाल
उप निरीक्षक
ग्रुप सेंटर, अजमेर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्रीमती अनारकली सुद
उप निरीक्षक (महिला)
99 आर ए एफ, हैदराबाद
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्रीमती कैलाश आहुजा
सेक्टर-इन-चार्ज
कम्पोजिट अस्पताल, जी.सी., झड़ौदा कलां,
नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्रीमती सोनामा सेम्युल
प्रयोगशाला तकनीशियन
कम्पोजिट अस्पताल, जी.सी., झड़ौदा कलां,
नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मोती राम
हैड कांस्टेबल
जी सी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कमखोलाल सिंगसिट
हैड कांस्टेबल
ग्रुप सेंटर, लेंगिंग इम्फाल
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गोविन्दन कुमारस्वामी
हैड कांस्टेबल
143वीं बटालियन, लेम्फेलपट, इम्फाल,
पश्चिमी मणिपुर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कुल्लामुनियन वडीवेलु
हैड कांस्टेबल
24वीं बटालियन, जवाहर टनल, यात्री निवास मार्फत
56 ए पी ओ (जम्मू और कश्मीर)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जनार्दन सिंह
हैड कांस्टेबल
178वीं बटालियन मार्फत 56 एपीओ,
जम्मू और कश्मीर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अशोक कुमार
हैड कांस्टेबल/ दर्जी
जी सी, खटखटी, जिला कर्बी एंगलॉग, असम
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मोती लाल साँकला
कांस्टेबल/ दफ्तरी
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के. अंगम कोम
कांस्टेबल
ग्रुप सेंटर, लेगिंग, इम्फाल
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जगमोहन राम
रसोइया
50वीं बटालियन, ग्रुप सेंटर सिंदरी,
धनबाद, झारखण्ड
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मिंजा नायक
सफाई कर्मचारी
66वीं बटालियन, ग्रुप सेंटर, मोकामाघाट,
डाकघर औंटा, बिहार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बी.भानु
भिशती
79वीं बटालियन, श्रीनगर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रेम सिंह
धोबी
88वीं (एम) बटालियन, द्वारका, सैक्टर-8, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुरेश चन्द्र कुकरेती
केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी
हरिद्वार
गृह मंत्रालय

श्री मान सिंह
उप निदेशक
डी आर टी सी, शिवपुरी
गृह मंत्रालय

श्री परविन्दर पाल सिंह
केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

डॉ. दयाल सिंह बुर्फाल
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री हरेसमुद्रम राघवेन्द्र प्रसाद
केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी
बैंगलौर
गृह मंत्रालय

श्री देव प्रकाश मिश्र
संयुक्त उप निदेशक/ तकनीकी
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री हरो प्रसाद सेन
अनुभाग अधिकारी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री सी वी वेंटरामन
सहायक निदेशक
मुख्यालय, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री वीरेन्द्र कुमार
केन्द्रीय सहायक आसूचना अधिकारी-1/जी.
दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री प्रदीप कुमार दुबे
सहायक निदेशक
भोपाल
गृह मंत्रालय

श्री प्रमिन्दर जीत शर्मा
केन्द्रीय सहायक आसूचना अधिकारी-1/जी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री चन्द्रशेखरन रामचन्द्रन नायर
सहायक निदेशक
तिरुवनन्तपुरम
गृह मंत्रालय

श्री बिनय कुमार
केन्द्रीय सहायक आसूचना अधिकारी-1/ डब्ल्यूटी
पटना
गृह मंत्रालय

श्री कशमीर सिंह
सहायक निदेशक
चंडीगढ़
गृह मंत्रालय

श्री आजाद सिंह सोलंकी
केन्द्रीय सहायक आसूचना अधिकारी-1/जी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री हरि नाथ
सहायक निदेशक
इलाहाबाद
गृह मंत्रालय

श्री वेद कुमार
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी-1/जी
जम्मू
गृह मंत्रालय

श्री अंग्रेज सिंह
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी-1/जी
अमृतसर
गृह मंत्रालय

श्री अनिल कुमार जान्डयाल
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी-1/जी
श्रीनगर
गृह मंत्रालय

श्री पवन प्रधान
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी-11/जी
ऐज़वाल
गृह मंत्रालय

श्री अनिल के. गौतम
उप महानिरीक्षक
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
भारत-तिब्बत-सीमा-पुलिस

श्री राजेन्द्र सिंह
सैकिंड-इन-कमाण्ड
31 बटालियन यूपिया, पापुम्पारे, अरुणाचल प्रदेश
भारत-तिब्बत-सीमा-पुलिस

श्री धर्म सिंह
सहायक कमांडेंट
पूर्वी फ्रंटियर मुख्यालय, शिलांग
भारत-तिब्बत-सीमा-पुलिस

श्री हरी सिंह नेगी
सहायक कमांडेंट
उत्तरी फ्रंटियर मुख्यालय, देहरादून
भारत-तिब्बत-सीमा-पुलिस

श्री भरत राज
निरीक्षक
नौवीं बटालियन माफ़त 99 ए पी ओ
भारत-तिब्बत-सीमा-पुलिस

श्री देवी सिंह
निरीक्षक
सेक्टर मुख्यालय, तिगड़ी कैम्प, नई दिल्ली
भारत-तिब्बत-सीमा-पुलिस

श्री आलम सिंह रावत
निरीक्षक
30वीं बटालियन, माहिडाण्डा (उत्तराखण्ड)
भारत-तिब्बत-सीमा-पुलिस

श्री हरबंश लाल शर्मा
निरीक्षक (सीएम)
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
भारत-तिब्बत-सीमा-पुलिस

श्री टासी अंगरूप
कांस्टेबल
एस पी टी बटालियन, करेरा (म०प्र०)
भारत-तिब्बत-सीमा-पुलिस

श्री मधू सुदन शर्मा
ग्रुप कमाण्डर
सेक्टर मुख्यालय, मानेसर, गुडगांव
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री राज कुमार
सहायक कमाण्डर-1/ जी डी
मुख्यालय 13, एस आर जी, मानेसर, गुडगांव
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री चन्द्रेश कुमार वशिष्ठ
सहायक कमाण्डर-11(अनुसचिवीय)
मुख्यालय, मेहरमनगर, नई दिल्ली
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

डॉ० एम.एस. मरतोल्या
महानिरीक्षक/ निदेशक (चिकित्सा)
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
सशस्त्र सीमा बल

ब्रिगेडियर वी.जे.एस् लिड्डर
उप निदेशक (संचार)
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
सशस्त्र सीमा बल

श्री बिनोद नायक
कमांडेंट
25वीं बटालियन, दिल्ली
सशस्त्र सीमा बल

श्री महाबीर सिंह नेगी
उप कमांडेंट
29वीं बटालियन
सशस्त्र सीमा बल

श्री संजीव शर्मा
कमांडेंट
बल मुख्यालय
सशस्त्र सीमा बल

श्री जीवन चन्द्र पन्त
सहायक कमांडेंट
टीसी, सलोनीबाड़ी
सशस्त्र सीमा बल

श्री पी.सी. जरयाल
अनुभाग अधिकारी
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
सशस्त्र सीमा बल

श्री बीर सिंह विद्यार्थी
सूबेदार मेजर
फ्रंटियर मुख्यालय, पटना
सशस्त्र सीमा बल

श्री हेसनम जाँय सिंह
कांस्टेबल (पेंटर)
13वीं बटालियन पीपराकोठी
सशस्त्र सीमा बल

श्री कमलजीत सिंह बनयाल
सहायक पुलिस महानिरीक्षक
मुख्यालय, नई दिल्ली
विशेष सुरक्षा समूह

श्री नरेन्द्र सिंह
सुरक्षा अधिकारी-1
मुख्यालय, नई दिल्ली
विशेष सुरक्षा समूह

श्री सुरेश कुमार रजियाल
सुरक्षा अधिकारी-1। (टी)
मुख्यालय, नई दिल्ली
विशेष सुरक्षा समूह

श्री बलराज सिंह
सुरक्षा अधिकारी-1
मुख्यालय, नई दिल्ली
विशेष सुरक्षा समूह

श्री परवीन कुमार
वरिष्ठ सुरक्षा सहायक (एम टी)
मुख्यालय, नई दिल्ली
विशेष सुरक्षा समूह

श्री बाबू डेनियल
उप निरीक्षक
उमशा उमियाम, मेघालय
पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी

डॉ० रवि अम्बष्ट
कनिष्ठ विश्लेषक
नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गुप्ता
आशुलिपिक ग्रेड-1। (वैयक्तिक सहायक)
नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री गयासी राम
कांस्टेबल
नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री सतीश चन्द्र शर्मा
उप निदेशक
नई दिल्ली
समन्वय पुलिस बेतार निदेशालय

श्री अजय गडकरी
निरीक्षक (अंगुलि छाप)
नई दिल्ली
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

श्री शिव करण सिंह बंसल
उप पुलिस अधीक्षक
नई दिल्ली
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

श्री पी वेंकट स्वामी
हैड कांस्टेबल
हैदराबाद
सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

श्री शेख अब्दुल समद
हैड कांस्टेबल
हैदराबाद
सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

श्री संजय शर्मा
सहायक सुरक्षा आयुक्त
नई दिल्ली
नागरिक उड्डयन मंत्रालय

श्री रामेन्दर सिंह
सहायक सुरक्षा और कार्मिक अधिकारी
नई दिल्ली
विदेश मंत्रालय

डॉ० के.एस. प्रताप कुमार
निदेशक
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, माधापुर,
सायबराबाद, हैदराबाद
वस्त्र मंत्रालय

श्री सुनील कुमार सिंह
वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी
रेल मंत्रालय

श्री रतन चन्द
वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त
दिल्ली पश्चिमी मण्डल, नई दिल्ली
रेल मंत्रालय

श्री मोहिन्दर सिंह
मण्डल सुरक्षा आयुक्त
समस्तीपुर
रेल मंत्रालय

श्री वेद प्रकाश गौतम
सहायक सुरक्षा आयुक्त
न्यू जलपाइगुडी
रेल मंत्रालय

श्री सुरेश कुमार
ए सी-कम-प्रधानाचार्य
आर पी एस एफ, दूसरी बटालियन रजही कैम्प,
गोरखपुर
रेल मंत्रालय

श्री लेखराज संध्याना
निरीक्षक
आर पी एस एफ, छठी बटालियन दयाबस्ती, दिल्ली
रेल मंत्रालय

श्री नन्दजी सिंह
निरीक्षक
आन्तरिक सतर्कता समूह, ज़ोनल मुख्यालय,
बिलासपुर
रेल मंत्रालय

श्री उमेश कुमार सिंह
मण्डल निरीक्षक
एस आर डी एस सी का कार्यालय, लखनऊ जंक्शन
रेल मंत्रालय

श्री राम किशन शर्मा
उप निरीक्षक
आर पी एस एफ, 11वीं बटालियन, गरहरा, बेगूसराय
रेल मंत्रालय

श्री पी माधवा राव
उप निरीक्षक
अपराध प्रकोष्ठ, वरिष्ठ डी एस सी कार्यालय,
वाल्टेयर मण्डल,
विशाखापटणम, रेल मंत्रालय

श्री मोहम्मद तजम्मूल हुसैन
सहायक उप निरीक्षक/अरमोरर
दूसरी बटालियन आर पी एस एफ/ गोरखपुर
रेल मंत्रालय

श्री अब्दुल माजिद खान
सहायक उप निरीक्षक
आर पी एफ, डाकघर इतवारी
रेल मंत्रालय

श्री गुलशन कुमार शर्मा
हैड कांस्टेबल
पांचवीं बटालियन आर पी एस एफ/ त्रिची
रेल मंत्रालय

श्री शीशपाल सिंह
हैड कांस्टेबल
रेल बोर्ड, उत्तरी रेलवे
रेल मंत्रालय

श्री बाल कृष्ण गौतम
सूबेदार (एम)(एचजी)
मध्य प्रदेश

श्री प्रलय कुमार पाल
हैड कांस्टेबल
हावड़ा
रेल मंत्रालय

श्री विनोद मुरलीधर कोलपकर
डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट (एचजी)
महाराष्ट्र

श्री विपिन कुमार उप्पल
डिप्टी कमांडेंट जनरल (एचजी)
राजस्थान

2. ये पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक की मंजूरी को विनियमित करने वाले नियमों के नियम 4(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

श्री गायड़ सिंह राठौड़
हैड कॉन्स्टेबल (एचजी)
राजस्थान

श्री जी.एस. गौड़
जूनियर स्टाफ ऑफिसर (सीडी)
डीजीसीडी/एमएचए

सं. 118-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2010 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री सिकंदर लाल
जूनियर स्टाफ आफिसर (सीडी)
दिल्ली

2. ये पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

श्री मनिन्दर सिंह धीर
एडिशनल चीफ वार्डन (सीडी)
दिल्ली

सं. 119-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2010 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री रमेश चन्दर छाजलान
डिप्टी चीफ वार्डन (सीडी)
दिल्ली

श्री भुबन सेकिया
हवलदार क्लर्क (एचजी)
असम

श्री लक्ष्मण सिंह रावत
डिप्टी चीफ वार्डन (सीडी)
दिल्ली

श्री श्याम नाथ सिंह
चीफ वार्डन (सीडी)
बिहार

श्री भूपाल सिंह चौहान
कमांडेंट (एचजी)
हिमाचल प्रदेश

श्री जयन्त प्रताप सिंह
डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट (एचजी)
बिहार

श्री डोडाथिम्मैया
एमटीजेसीओ (एचजी)
कर्नाटक

श्री लक्षणदेव कुमार सिंह
कंपनी कमांडर (एचजी)
बिहार

श्री मनीश कुमार
जमादार हैड क्लर्क (एचजी)
बिहार

श्री दीपा राम पुण्डरीर
कमांडेंट (एचजी)
हिमाचल प्रदेश

श्री बृज किशोर सक्सेना
सब-इंस्पेक्टर (एम)(एचजी)
छत्तीसगढ़

श्रीमती लज्जा देवी
कम्पनी कमांडर (एचजी)
हिमाचल प्रदेश

श्री नीलकण्ठ गढ़े
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एचजी)
छत्तीसगढ़

श्री ईश्वर वीरभद्रप्पा गेड्डप्पानावर
प्लाटून कमांडर (एचजी)
कर्नाटक

श्रीमती मालती रायकवार
प्लाटून कमांडर (एचजी)
छत्तीसगढ़

श्री करीमोउडा नारायण
इंस्ट्रक्टर (एचजी)
कर्नाटक

श्रीमती रजनी शोणिक
इंस्ट्रक्टर (सीडी)
दिल्ली

श्री एम.एस. सुरेश
इंस्ट्रक्टर (एचजी)
कर्नाटक

श्री कंवर पाल
इंस्ट्रक्टर (सीडी)
दिल्ली

श्री राम नरेश जयसवाल
सिपाही (एचजी)
मध्य प्रदेश

श्री रनबीर सिंह
चालक (सीडी)
दिल्ली

श्री संतोष कुमार बैरागी
डिवीजनल वार्डन (सीडी)
मध्य प्रदेश

श्री माम राज
डैमोस्ट्रेटर (एचजी)
दिल्ली

श्री जितेन्द्र चन्द्रकान्त राउत
सेकण्ड-इन-कमांड (एचजी)
महाराष्ट्र

श्री दीपक आनन्द
चीफ वार्डन (सीडी)
दिल्ली

श्री दिलीप मंगल जाधव
कंपनी सारजेण्ट मेजर (एचजी)
महाराष्ट्र

श्री सलाहुद्दीन मिर्जा
डिप्टी चीफ वार्डन (सीडी)
दिल्ली

श्री सचिन गोपीचन्द गावडे
इंस्ट्रक्टर (एचजी)
महाराष्ट्र

श्री गुरुदास गोविन्द केरकर
असिस्टेंट सैक्शन लीडर (एचजी)
गोवा

श्री मनोहर केशव म्हात्रे
डैमोस्ट्रेटर (ट्रेनिंग)(एचजी)
महाराष्ट्र

श्री तरसेम लाल
हवलदार इंस्ट्रक्टर (एचजी)
हरियाणा

श्रीमती जयश्री गोविन्द कुलकर्णी
डिवीजनल वार्डन (सीडी)
महाराष्ट्र

श्री दे बारसोन रमबाई
सेन्टर कमाण्डर (डीटीसी)(एचजी)
मेघालय

श्री राजेन्द्र सिंह
कंपनी कमाण्डर (एचजी)
उत्तर प्रदेश

श्री गगन बिहारी प्रधान
प्लाटून कमाण्डर (एचजी)
उड़ीसा

श्री रामपाल सिंह पुनिया
प्लाटून कमाण्डर (एचजी)
उत्तर प्रदेश

श्री सौभाग्य प्रधान
प्लाटून कमाण्डर (एचजी)
उड़ीसा

श्री शिव कुमार त्रिवेदी
ब्लाक ऑर्गनाइजर (एचजी)
उत्तर प्रदेश

श्री गुरतेज सिंह माहू
लीडिंग फायरमैन (सीडी)
राजस्थान

श्री योगेन्द्र सिंह
जूनियर इंस्ट्रक्टर (एचजी)
उत्तर प्रदेश

श्री ओम प्रकाश दाधीच
हैड कांस्टेबल (एचजी)
राजस्थान

श्री राम नारायण
हवलदार इंस्ट्रक्टर (एचजी)
उत्तर प्रदेश

श्री बिजेन्द्र सिंह
डिप्टी कंट्रोलर (सीडी)
राजस्थान

श्री राकेश कुमार तिवारी
सुपरिन्टेंडेंट (स्टोर)(सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री वी. नागराजन
होम गार्ड्स
त्रिपुरा

श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव
डिवीजनल वार्डन (सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री शान्ति देबनाथ
होम गार्ड्स
त्रिपुरा

श्री सरबजीत सिंह कपूर
स्टाफ ऑफिसर टू चीफ वार्डन (सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री सुरेन्द्र सिंह
डिवीजनल कमाण्डेंट (एचजी)
उत्तर प्रदेश

श्री मनोज बंसल
डिप्टी डिवीजनल वार्डन (सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री संतोष कुमार
डिवीजनल कमाण्डेंट (एचजी)
उत्तर प्रदेश

श्री रबीन्द्र नाथ दास
सीनियर स्टाफ ऑफिसर इंस्ट्रक्टर (सीडी)
पश्चिम बंगाल

श्री राज किशोर
डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट (एचजी)
उत्तर प्रदेश

2. ये पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

श्री राम कुंवर वर्मा
सीनियर नोटर ड्राफ्टर (एचजी)
उत्तर प्रदेश

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

सं. यू-13019/3/2010-ए.एन.एल.--गृह मंत्रालय की दिनांक 4 जून, 2010 की अधिसूचना सं. यू-13019/3/2010-ए.एन.एल. के पैरा 2 (घ) के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित व्यक्तियों को लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीति किया है :--

- (i) श्रीमती सुनीता इस्माइल, के. आर. बी.,
मिनी मंजिल, कावारत्ती-682555
- (ii) श्री वी. एम. शमसुद्दीन,
शामजरथ (एच),
डाकखाना अगाती द्वीप-682553

एम. एल. वर्मा
उप सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

संकल्प

सं. ई.आरबी-I/2009/23/22--श्री डेरेक ओ बेरेन, 158, प्रिंस अनवर शाह रोड, कोलकाता-700045 की अध्यक्षता में यात्री सेवा समिति के पुनर्गठन के संबंध में रेल मंत्रालय के दिनांक 16.07.2009, 12.11.2009, 08.02.2010, 22.03.2010 तथा 01.09.2010 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में रेल मंत्रालय ने अब यह निर्णय लिया है कि श्री गौतम घोष पुत्र स्वर्गीय श्री एस. एन. घोष, निवासी 5/28, नेताजी नगर, कोलकाता-700040 को यात्री सेवा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2010

No. 112-Pres/2010—The President is pleased to approve the award of the “Bar to Sena Medal/Army Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. IC-50367 Lieutenant Colonel Thangjam Tikendra Singh, Sena Medal, Grenadiers/16 Assam Rifles
2. IC-64395 Captain Basant Sewada, Sena Medal, Armoured Corps/8 Rashtriya Rifles

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 113-Pres/2010—The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. IC-51955 Colonel Kolankara Mohan Nair 7th Battalion The Madras Regiment
2. IC-57241 Major Vinod Kumar Maratha Light Infantry/56 Rashtriya Rifles
3. IC-57884 Major Surisetty Ramesh Regiment of Artillery/871 Field Regiment
4. IC-61427 Major Tathagata Dutta Armoured Corps/53 Rashtriya Rifles
5. IC-62075 Major Kuldeep Singh Army Service Corps/61 Rashtriya Rifles
6. IC-62121 Major Neeraj Kotwal Army Service Corps/12 Rashtriya Rifles
7. IC-62225 Major Anil Gautam Regiment of Artillery/12 Assam Rifles
8. IC-62371 Major Amit Kumar Singh Army Service Corps/53 Rashtriya Rifles
9. IC-63968 Major Kamlesh Kumar Regiment of Artillery/13 Rashtriya Rifles
10. IC-64024 Major Kuber Singh Karki Kumaon Regiment/50 Rashtriya Rifles
11. IC-64108 Major Upinder Pal Singh Armoured Corps/46 Assam Rifles
12. IC-64894 Major Sandeep Singh Kumaon Regiment/26 Rashtriya Rifles
13. IC-65235 Major Aditya Kumar Devrani, Shaurya Chakra, Regiment of Artillery/29 Rashtriya Rifles
14. IC-65403 Major Farid Ur Rehman Brigade of The Guards/61 Rashtriya Rifles
15. IC-65674 Major Puneet Singh Atwal 1st Battalion The Parachute Regiment (Special Forces)
16. IC-66827 Major Jog Abhishek Suresh Jat Regiment/12 Assam Rifles
17. IC-67973 Major Kuldeep Kumar Dabral 4/8 Gorkha Rifles
18. IC-68743 Major Avinash Rana 7th Battalion The Madras Regiment
19. SS-41214 Major Jugmal Singh Vaghela, Shaurya Chakra, 11th Battalion The Jat Regiment
20. SS-41839 Major Tej Pratap Singh 8th Battalion The Sikh Regiment
21. WS-00458 Major Mitali Madhumita Army Education Corps/Embassy of India, Kabul
22. IC-67760 Captain Shahzeb Shabih Corps of Engineers/54 Rashtriya Rifles
23. SS-41660 Captain Blesson K Daniel Army Air Defence/10 Rashtriya Rifles
24. SS-42448 Captain Gautam Kumar 12th Battalion The Bihar Regiment
25. IC-69699 Lieutenant Sambhav Sagar 19th Battalion The Madras Regiment
26. IC-70331 Lieutenant Rahul Rana 3rd Battalion The Kumaon Regiment
27. IC-70923 Lieutenant Sourabh Sirohi 2nd Battalion The Bhihar Regiment
28. JC-412867 Subedar Anand Singh 4th Battalion The Parachute Regiment (Special Forces)
29. JC-413027 Subedar Dalvir Singh Malhotra 4th Battalion The Parachute Regiment (Special Forces)
30. JC-559562 Subedar Basu Deo Turi 2nd Battalion The Bihar Regiment
31. JC-413372 Naib Subedar Balvir Singh 1st Battalion The Parachute Regiment (Special Forces)
32. JC-623840 Naib Subedar Rajesh Thapa 4/8 Gorkha Rifles
33. 2785965 Havildar Panchal Irappa Dhanappa 11th Battalion The Maratha Light Infantry
34. G/3400147 Havildar Ramesh Chand 34 Assam Rifles
35. 2793555 Lance Havildar Rajesh BS 11th Battalion The Maratha Light Infantry
36. 2792488 Naik Sirsat bhanudas Eknath Maratha Light Infantry/56 Rashtriya Rifles
37. 2796299 Naik More Bajarang Narayan 11th Battalion The Maratha Light Infantry

- | | |
|--|---|
| 38. 2998657 Naik Girvar
19th Battalion The Rajput Regiment | 59. 3003613 Sepoy Shrawan Singh
9th Battalion The Rajput Regiment (Posthumous) |
| 39. 3187880 Naik Kuljeet Kumar
Dogra Regiment/62 Rashtriya Rifles | 60. 3202943 Sepoy Atul Kumar
11th Battalion The Jat Regiment |
| 40. 4187374 Naik Bhim Singh
Kumaon Regiment/50 Rashtriya Rifles | 61. 4427932 Sepoy Longjam Ram Singh
Assam Regiment/42 Rashtriya Rifles |
| 41. 13622515 Naik Selva Kumar P
1st Battalion The Parachute Regiment
(Special Forces) (Posthumous) | 62. 12944396 Sepoy Ajnaita Lal
159 Infantry Battalion (Territorial Army)
(Home & Hearth) Dogra/11 Rashtriya Rifles |
| 42. 13623415 Naik Manoj Kumar
4th Battalion the Parachute Regiment
(Special Forces) | 63. 13624561 Sepoy Avinash Kumar
Rajput Regiment/10 Rashtriya Rifles |
| 43. 2605201 Lance Naik Prince Joseph
7th Battalion The Madras Regiment | 64. 14935024 Sepoy Purna Limboo
Mechanised Infantry/9 Rashtriya Rifles |
| 44. 2691126 Lance Naik Tej Ram Meena
Grenadiers/39 Rashtriya Rifles | 65. 2896969 Rifleman Shree Kant
5th Battalion (Napier) The Rajputana Rifles |
| 45. 2803900 Lance Naik Pundkar Sandip Ganpatrao
12th Battalion The Maratha Light Infantry | 66. 5756850 Rifleman Narendra Saud Kchhetri
4/8 Gorkha Rifles |
| 46. 3193999 Lance Naik Mana Ram
Jat Regiment/61 Rashtriya Rifles | 67. 9103699 Rifleman Sunil Kumar
Jammu and Kashmir Light Infantry/
10 Rashtriya Rifles |
| 47. 4478918 Lance Naik Bapukan Das
9th Battalion The Sikh Light Infantry | 68. 12974266 Rifleman Mohammed Abass Tantry
162 Infantry Battalion (Territorial Army)
(Home & Hearth) Jammu and Kashmir Light
Infantry/42 Rashtriya Rifles |
| 48. 12944107 Lance Naik Des Raj
159 Infantry Battalion (Territorial Army)
(Home & Hearth) Dogra/11 Rashtriya Rifles | 69. 12974408 Rifleman Mohammed Amin Ganie
162 Infantry Battalion (Territorial Army)
(Home & Hearth) Jammu and Kashmir Light
Infantry/42 Rashtriya Rifles |
| 49. 12944336 Lance Naik Ajaz Hussain
159 Infantry Battalion (Territorial Army)
(Home & Hearth) Dogra/26 Rashtriya Rifles | 70. 16013463 Rifleman Ramendra Singh Baish
Rajputana Rifles/9 Rashtriya Rifles |
| 50. 12944663 Lance Naik Nisar Ahmed
159 Infantry Battalion (Territorial Army)
(Home & Hearth) Dogra/10 Rashtriya Rifles | 71. 16014974 Rifleman Ajay Kumar
Rajputana Rifles/18 Rashtriya Rifles |
| 51. 2496006 Sepoy Jasvir Singh
Punjab Regiment/22 Rashtriya Rifles | 72. G/2502052 Rifleman Sanglung Muana
25 Assam Rifles |
| 52. 2498188 Sepoy Balwinder Singh
Punjab Regiment/22 Rashtriya Rifles | 73. G/2701836 Rifleman Mansa Kumar Ojha
46 Assam Rifles |
| 53. 2499738 Sepoy Lakhvir Singh
Punjab Regiment/22 Rashtriya Rifles (Posthumous) | 74. G/5000272 Rifleman KSH Sanayaima Singh
21 Assam Rifles |
| 54. 2607537 Sepoy Sinumon S
19th Battalion The Madras Regiment | 75. 9113216 Paratrooper Imtiyaz Ahmed Thoker
1st Battalion The Parachute Regiment
(Special Forces) (Posthumous) |
| 55. 2607994 Sepoy G Prabu
Madras Regiment/54 Rashtriya Rifles | 76. 13626673 Paratrooper Hajari Lal Gurjar
1st Battalion The Parachute Regiment
(Special Forces) |
| 56. 2804362 Sepoy Pandhare Maruti Mahadev
11th Battalion The Maratha Light Infantry | 77. 13626875 Paratrooper Lakhwinder Pal Singh
Parachute Regiment/31 Rashtriya Rifles |
| 57. 2997779 Sepoy Parvesh Kumar
Rajput Regiment/10 Rashtriya Rifles | 78. 2693614 Grenadier Hardev Singh
Grenadiers/39 Rashtriya Rifles |
| 58. 3001111 Sepoy Rishi Raj Singh
19th Battalion The Rajput Regiment | |

79. 2695623 Grenadier Jai Dev
Grenadiers/12 Rashtriya Rifles
80. 15168087 Gunner Faltankar Divakar Daduram
Regiment of Artillery/32 Rashtriya Rifles
(Posthumous)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 114-Pres/2010—The President is pleased to approve the award of the “Nao Sena Medal/Navy Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. Commander Gangupomu Murali, (03943-K)
2. Lieutenant Commander Ajay Kanwar, (05240-H)
3. Rajan Singh, Sea I CD III, (214217-H)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 115-Pres/2010—The President is pleased to approve the award of the “Vayu Sena Medal/Air Force Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. Wing Commander Sagar Singh Rawat (22711) Flying (Pilot)
2. Squadron Leader Ashok Kumar (24900) Flying (Pilot)
3. Squadron Leader Amit Sharma (26545) Flying (Pilot)
4. Squadron Leader Vishal Mohan (27475) Flying (Pilot)
5. Squadron Leader Rohit Rai (27992) Flying (Pilot)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 116-Pres/2010—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2010 to award the President's Police Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers :—

Shri S V Ramana Murthy
Additional Director General of Police (Coord.)
Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Varun Sindhu Kul Kaumudi
Inspector General of Police
Economic Offences Wing, CID, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Thota Venkata Rao
Commandant
10 Bn, APSP Beechpally, Mahaboobnagar
Andhra Pradesh

Shri Nawab Imdad Hussain
Inspector General of Police
Special Operation Unit, Kahilipara, Guwahati
Assam

Shri Sunit Kumar
Additional Director General of Police
SCRB Patna,
Bihar

Shri Mahendra Singh Tomar
Deputy Inspector General of Police
Kanker Range, Kanker
Chhattisgarh

Shri P N Aggarwal
Spl Commissioner of Police
PHQ Delhi,
N.C.T. of Delhi

Shri Raja Ram Yadav
Inspector
SHO, Jama Masjid, Central Distt, Darya Ganj, Delhi
N.C.T. of Delhi

Shri Tirth Raj
Additional Director
Anti Corruption Bureau, Ahmedabad
Gujarat

Shri Yash Pal Singal
Additional Director General of Police
CID Panchkula
Haryana

Shri Sita Ram Mardi
Inspector General of Police
TTR, PHQ, Shimla
Himachal Pradesh

Shri Aijaz Ali
Inspector General of Police
Crime
Jammu and Kashmir

Shri N Achuta Rao
Additional Director General of Police
O/o DG & IGP, Bangalore
Karnataka

Shri Kunigal Srikanta
Superintendent of Police
Lokayuktha Bangalore Rural District,
Karnataka

Shri Vinson M Paul
Additional Director General of Police
PHQ, Thiruvananthapuram
Kerala

Shri Ashok Dohare
Inspector General of Police
Selection, PHQ, Bhopal
Madhya Pradesh

Dr. (Smt.) Asha Mathur
Superintendent of Police
Rajgarh
Madhya Pradesh

Shri Tukaram Anandrao Chavan
Commissioner of Police
Railway, Mumbai
Maharashtra

Shri Madhukar Hirji Gavit
Additional Commissioner of Police
Nagpur City
Maharashtra

Shri Rajendra Dakorjibhai Tambat
Assistant Commissioner of Police
Tardeo Division, Mumbai
Maharashtra

Shri Mohammad Alimuddin
Inspector
Imphal East Distt.
Manipur

Shri Vancouver Kharkongor
Deputy Superintendent of Police
SB, Hqrs, Shillong
Meghalaya

Shri L. Hrangawna
Deputy Inspector General of Police
Aizawl
Mizoram

Shri Kelhousithie Kire
Director General of Police
PHQ, Kohima
Nagaland

Shri Ramesh Prasad Singh
Additional Director-cum-I.G. of Police
Intelligence, Cuttack
Orissa

Shri Jitendra Kumar Patra
Superintendent of Police
Khurda
Orissa

Shri Lok Nath Angra
Senior Superintendent of Police
Gurdaspur
Punjab

Shri Suresh Chowdhary
Additional Director General of Police
Railways, Jaipur
Rajasthan

Shri K P Maghendhran
Additional Director General of Police
Police Crime, Chennai
Tamil Nadu

Shri Khatra Joy Reang
Commandant
1st Bn., TSR, Gokulnagar, West Tripura,
Tripura

Shri Ram Deo
Additional Director General of Police
CB, CID Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Aloke Prasad
Chief Vigilance Officer,
National Highways Authority of India,
New Delhi

Smt. Mithlesh Singh
Deputy Superintendent of Police
CB, CID, PHQ, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Ganesh Singh Martolia
Commandant
46 Bn PAC Rudrapur
Uttarakhand

Shri Surajit Kar Purkayastha
Inspector General of Police
Law and Order, Kolkata
West Bengal

Shri Shishir Kumar Mishra
Inspector General
FHQ, CGO Complex, New Delhi
Border Security Force

Shri Ravi Kumar Ponothe
Deputy Inspector General
STC, Yalahanka, Bangalore
Border Security Force

Shri Bharat Singh Rana
Deputy Inspector General
FTR Hq, Rajasthan, P.O.-Mandore Road
Distt-Jodhpur
Border Security Force

Shri Syed Abdul Khader
Deputy Inspector General
STC, Chakur, Distt-Lathur, Maharashtra
Border Security Force

Shri Ram Singh Markam
Second-in-Command
FTR HQ, Gujarat, PO-Chiloda Road, Gandhinagar,
Border Security Force

Shri Suresh Kumar Kashyap
Superintendent of Police
SU, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Harikesh
Additional Superintendent of Police
AC-II, New Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Dinesh Chandra Dwivedi
Additional Superintendent of Police
ACB, Ranchi
Central Bureau of Investigation

Shri Shaikh Mehaboob Shareef
Commandant
KRTC Mundali Orissa
Central Industrial Security Force

Shri Shivajee Singh
Sub-Inspector
Unit BSL, Bokaro
Central Industrial Security Force

Shri Talluri Bheemeswara Rao
Deputy Inspector General of Police
FHQ, CGO Complex, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Aftab Ahmed Khan
Deputy Inspector General of Police
O/o DIG, Silchar Range, Dayapur (Assam)
Central Reserve Police Force

Shri Pradip Kumar Biswas
Deputy Inspector General of Police
CIAT School, Dayapur, Silchar, Assam
Central Reserve Police Force

Shri Ram Janm Yadav
Deputy Commandant
138 Bn., Sinkiview, Dist. Papumpare
Arunachal Pradesh
Central Reserve Police Force

Shri Mangal Singh
Additional Deputy Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Ramasamy Raghunathan
Assistant Director
Chennai
Ministry of Home Affairs

Shri Deepak Kumar Sharma
Assistant Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Gopal Singh Bisht
Assistant Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Murari Lal
Assistant Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Navtej Singh
Assistant Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Ranbir Singh Sharma
Deputy Inspector General
SHQ, Itanagar, Arunachal Pradesh
Indo Tibetan Border Police

Shri Ishan Pradeep
Deputy Inspector General (Engineer)
Northern Frontier, Seemadwar, Dehradun
Indo Tibetan Border Police

Shri S. Bandhopadhyay
Inspector General
SSB Academy, Srinagar
Sashastra Seema Bal

Shri K. S. Rawat
Senior Field Officer (G)
SHQ Bongaigoan
Sashastra Seema Bal

Shri Jyotirmay Chakravarty
Inspector General
HQ, New Delhi
Special Protection Group

Shri Lalit Kumar
Inspector General
W. Rly. Mumbai
M/o Railways

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rule governing the grant of President's Police Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 117-Pres/2010—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2010 to award the Police Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri K Sreenivasa Reddy
Additional Director
ACB, Hyderabad
Andhra Pradesh

Dr. A Ravi Shankar
Deputy Inspector General of Police
Karimnagar Range, Karimnagar
Andhra Pradesh

Shri Dasari Rama Krishnaiah
Superintendent of Police
Krishna Distt. Machillipatnam
Andhra Pradesh

Shri Koppiseti Veera Venkata Gopal Rao
Deputy Commissioner of Police (L&O)
Visakhapatnam City
Andhra Pradesh

Shri B. V. Ramana Kumar
Foreigners Regional Registration Officer,
Sultan Bazar, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Soumithri Madhava Chari
Additional Superintendent of Police
West Godavari, Eluru
Andhra Pradesh

Shri E. Ashok Kumar
Deputy Superintendent of Police
Appa, Himayat Sagar, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Addala Ventaka Ratnam
Assistant Commissioner of Police
Special Branch, Cyberabad
Andhra Pradesh

Shri Kinjarapu Venkata Rama Krishna Prasad
Deputy Superintendent of Police
ACB, Vishakhapatnam
Andhra Pradesh

Shri Kolar Krishna
Inspector of Police
Penukonda Circle, Anantapur (Distt.)
Andhra Pradesh

Shri Sivakoti Baburao
Inspector of Police
Intelligence Department, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Chilaka China Sambasiva Rao
Reserve Inspector
1st Bn. APSP Yousufguda, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Syed Jamaluddin
Assistant Sub-Inspector of Police
Counter Int. Cell, Mahabubnagar Distt.
Andhra Pradesh

Shri G. Uthanna
Assistant Sub-Inspector
Anantapur Town-PS
Andhra Pradesh

Shri Syed Habeeb
Reserve Head Constable
GRP Special Branch, Secunderabad
Andhra Pradesh

Shri Malneedi Krishna
O/S Sub-Inspector (HC)
Int. Hyderabad Region
Andhra Pradesh

Shri Jeldi Abraham
Head Constable
CCS, Guntur
Andhra Pradesh

Shri Seshan Anbalagan
Head Constable
Asif Nagar-PS, West Zone, Hyderabad City,
Andhra Pradesh

Shri Kotari Prasada Rao
Police Constable
Bandapalli-PS Vizianagaram-Distt.
Andhra Pradesh

Shri Thupten Tsewang Lama
Additional Superintendent of Police
CM Security Cell, Itanagar
Arunachal Pradesh

Shri Jahirul Haque
Inspector (RM)
APRO, Guwahati City VHF Control
Assam

Shri Dinabandhu Das
Havildar
4th AP Bn., Kahilipara, Guwahati
Assam

Shri Rameswar Kurmi
Havildar
2nd AP Bn. Makum, Tinsukia
Assam

Shri Nipen Doimary
Lance Naik (AB)
2nd AP Bn. Makum Tinsukia
Assam

Shri Dharma Narayan Aditya
Constable
DEF, Haflong Police Reserve, N.C. Hills
Assam

Shri Shyam Das
Constable
Jorhat DEF
Assam

Shri Suresh Prasad Chaudhary
Commandant
BMPS-5, Patna
Bihar

Shri Sudhir Kumar
Superintendent of Police
Vigilance Investigation Bureau,
Patna
Bihar

Shri Ashok Kumar Sinha
Deputy Superintendent of Police
BMP-14, Patna
Bihar

Shri Shiva Kumar Jha
Sub Divisional Police Officer
Forbisganj, Distt. Araria
Bihar

Shri Md. Naushad Alam
Sub-Inspector
Police Hqrs, Patna
Bihar

Shri Rakesh Kumar
Steno/Sub-Inspector
DGP Office, Patna
Bihar

Shri Murari Mishra
Havildar
Bhagalpur
Bihar

Shri Subodh Singh
Constable
Patna
Bihar

Shri Kailash Sahni
Constable
Patna
Bihar

Shri Soikoth Bhattacharya
Sepoy
Special Branch, Patna
Bihar

Shri Umesh Thakur
Havildar
Special Branch Old Secretariat, Patna
Bihar

Shri Sunil Kumar Singh
Sub-Inspector
Special Branch, Patna
Bihar

Shri Hem Krishna Rathore
Commandant
8th Bn (IR) CAF Rajnandgaon
Chhattisgarh

Shri Sanjeev Shukla
Superintendent of Police
C.M., Security, Raipur
Chhattisgarh

Shri Sanjay Sharma
Deputy Superintendent of Police
Dantewada
Chhattisgarh

Shri Bishnu Prasad Deshmukh
Sub-Inspector
SIB PHQ, Raipur
Chhattisgarh

Shri Shyam Lal Kodopi
Head Constable
Distt. Kanker
Chhattisgarh

Shri Pramod Kumar Sharma
Sub-Inspector (Min.)
SB PHQ Raipur
Chhattisgarh

Shri Rupinder Kumar
Deputy Commissioner of Police
Traffic, Central Range, New Delhi
N.C.T. of Delhi

Shri Baljit Singh Bamel
Assistant Commissioner of Police
Land & Building Cell, PHQ
N.C.T. of Delhi

Shri Hari Singh Bisht
Assistant Commissioner of Police
Deptt. Enquiry Cell,
N.C.T. of Delhi

Shri Jagminder Singh
Assistant Commissioner of Police
1st Bn. DAP, New Police Lines, Delhi
N.C.T. of Delhi

Shri Gurnam Singh Randhawa
Assistant Commissioner of Police
Parliament Street
N.C.T. of Delhi

Shri Rajiv Bhatnagar
Inspector
Deptt. Enquiry Cell,
N.C.T. of Delhi

Shri Raj Kumar Singh
Assistant Commissioner of Police
Special Cell, Northern Range,
New Delhi
N.C.T. of Delhi

Shri Lakshmi Narayan Mishra
Inspector
Traffic Unit
N.C.T. of Delhi

Shri Narsi Dass
Sub-Inspector
Security Unit
N.C.T. of Delhi

Shri Kishori Lal
Sub-Inspector
Police Training College, Jharoda Kalan
N.C.T. of Delhi

Smt. Roslin Punam Minz
W/Sub-Inspector
PS/CWC, Nanakpura
N.C.T. of Delhi

Shri Surender Singh
Constable
West District
N.C.T. of Delhi

Shri Baburao A. Parab Police Sub-Inspector PCR Porvorim Goa	Shri Ilyasmiya Usufmiya Thakore Unarmed Assistant Sub-Inspector Local Crime Branch, Anand Gujarat
Shri Gyanender Singh Malik Additional Commissioner of Police Police Bhawan, Vadodara Gujarat	Shri Anil Kumar Rao Superintendent of Police Rohtak Haryana
Shri Hasmukh Kumar Narayanbhai Patel Deputy Inspector General of Police (Planning & Modernisation) Gandhinagar Gujarat	Smt. Luxmi Devi Inspector In-Charge, EOW, Sonipat Haryana
Shri Manoj Shashidhar Deputy Inspector General of Police Rajkot Range, Rajkot Gujarat	Shri Chander Gupt Parsad Singh Sub-Inspector SCRB, Madhuban Haryana
Shri Atul Karwal Joint Commissioner of Police Shaikhbaug, Ahmedabad Gujarat	Shri Mandroop Singh Sub-Inspector HPA Madhuban Haryana
Shri Ramanbhai Kodarbhai Patel Deputy Superintendent of Police O/o ADGP, Police Bhawan, Sector-18, Gandhinagar Gujarat	Shri Attar Singh Sub-Inspector Gurgaon Haryana
Shri Vajesinh Vakhatsinh Rathod Deputy Superintendent of Police Patan, S.P. Office, Sidhpur Char Rasta Gujarat	Shri Ganesh Kumar Sub-Inspector HPA Madhuban Haryana
Shri Bhagvanbhai M. Chauhan Assistant Commissioner of Police Surat City Gujarat	Shri Subhash Chander Assistant Sub-Inspector SVB Hqrs. Haryana
Shri Kalumiya Umarmiya Malek Police Inspector Police Crime Branch, Ahmedabad Gujarat	Shri Jaipal Singh Assistant Sub-Inspector SVB Hqrs. Haryana
Shri Pratapsinh Dashrathsinh Parmar Police Inspector B Division Police Station, Bhavnagar, Gujarat	Shri Diljeet Kumar Thakur Superintendent of Police SV & ACB, SR, Shimla Himachal Pradesh
Shri Rahemtulla Savaikhan Sindhi Police Inspector Vigilance Squad, G.S., Gandhinagar Gujarat	Shri Rattan Singh Negi Commandant 1st Bn., Junga, Shimla Himachal Pradesh
Shri Hamidbin Abdullahbhai Arab Armed Police Inspector "A" Coy, SRPF, Gr. 8, Gondal Gujarat	Shri Ramesh Kumar Honorary Head Const Hamirpur Distt. Himachal Pradesh
Shri Vasantkumar Ramkrishna Sonar Police Sub-Inspector O/o Commissioner of Police, Ahmedabad Gujarat	Shri Sheikh Mahmood Senior Superintendent of Police Baramulla Jammu and Kashmir

Shri Abdul Rashid Lone
Superintendent of Police
SO to IGP Security
Jammu and Kashmir

Shri Mohd. Amin Khan
Commandant
IRP 17th Bn., Jammu
Jammu and Kashmir

Shri Manohar Lal Mehra
Superintendent of Police
AHJ Jammu
Jammu and Kashmir

Shri Devinder Paul Singh
Superintendent of Police
Telecom Jammu
Jammu and Kashmir

Shri Ghulam Hyder Badhana
Superintendent of Police
Vigilance Organization, Srinagar
Jammu and Kashmir

Shri Mohammad Yousuf Bandh
Deputy Superintendent of Police
SDPO Shaheed Gunj, Srinagar
Jammu and Kashmir

Shri Shabir Ahmad Khawaja
Deputy Superintendent of Police
PHQ,
Jammu and Kashmir

Shri Assadullah Bhat
Inspector
PCR Srinagar
Jammu and Kashmir

Shri Farooq Ahmad Sheikh
Inspector
Crime Branch, Kashmir
Jammu and Kashmir

Shri Maharaj Krishan Bhat
Sub-Inspector
Security Hq.
Jammu and Kashmir

Shri Ghulam Mohammad Paul
Assistant Sub-Inspector
PHQ,
Jammu and Kashmir

Shri Masood Ahmad Malik
Assistant Sub-Inspector
DPL, Srinagar
Jammu and Kashmir

Shri Girdhari Lal
Head Constable
SKPA Udhampur
Jammu and Kashmir

Shri Richard Lakra
Superintendent of Police
Garhwa
Jharkhand

Shri Bhuwan Rai
Steno Assistant Sub-Inspector
Special Branch, Ranchi
Jharkhand

Shri Anil Kumar Sinha
Assistant Sub-Inspector
Photo Section, Special Branch, Ranchi
Jharkhand

Shri Paras Nath Ojha
Sub-Inspector (Steno)
STF, Dhurwa, Ranchi
Jharkhand

Shri Brajesh Kumar Singh
Constable
Special Branch, Ranchi
Jharkhand

Shri Pradip Kumar Sudhanshu
Constable
Police Hqrs., Ranchi
Jharkhand

Shri Mohammed Wazir Ahmed
Inspector General of Police
DCRE, 1, Place Road, Bangalore
Karnataka

Shri Syed Ulfath Hussain
Deputy Inspector General of Police
Training and Recruitment, Bangalore
Karnataka

Shri Subhash C. Gudimani
Additional Superintendent of Police
Bangalore
Karnataka

Shri D. Palakshaiah
Deputy Superintendent of Police
Internal Security Division, Bangalore
Karnataka

Shri Sathandlahalli Reddapa Vijayakumar
Assistant Commissioner of Police
City Crime Record Bureau, Bangalore
Karnataka

Shri V. Govindaiah
Deputy Superintendent of Police
Chintamani Sub Division, Chickaballapura
Karnataka

Shri A.R. Badiger
Deputy Superintendent of Police
State Intelligence, Hubli
Karnataka

Shri Chandrasekhar Basanna Hosakeri
Deputy Superintendent of Police
CID Headquarters, Bangalore
Karnataka

Shri M. Prabhu Swamy
Deputy Superintendent of Police
Finger Print Bureau, Bangalore
Karnataka

Shri C.R. Udaya Shankar
Deputy Superintendent of Police
DGP Control Room, Bangalore
Karnataka

Shri Vazeer Saheb Taj Ahmed
Civil Police Inspector
O/o DGP, CID, Bangalore
Karnataka

Shri Narayana Swamy
Assistant Sub-Inspector
Yelahanka New Town PS, Bangalore City
Karnataka

Smt. Noorjahan
Assistant Sub-Inspector (W)
Distt. Police Office, Bellary
Karnataka

Shri Unnibhavi Basappa Siddaraya
Assistant Reserve Sub-Inspector
Dar, Bijapur
Karnataka

Shri G. Venkatesh
Head Constable
IX Bn, KSRP, Bangalore
Karnataka

Shri K.P. Somarajan
Director General of Police/Director
V & ACB, Thiruvananthapuram
Kerala

Shri K.G. James
Commandant
K.A.P. 3rd Bn., Adoor, Pathanamthitta Distt.,
Kerala

Shri S. Sasikumar
Superintendent of Police
CB CID, Hqrs., Thiruvanthapuram
Kerala

Shri P. Reghuvaran Nair
Deputy Superintendent of Police
Kanjirappally
Kerala

Shri P. Abdul Hameed
Deputy Superintendent of Police
VACB, Malappuram
Kerala

Shri K. Satheesan
Deputy Superintendent of Police
VACB Palakkad
Kerala

Shri V.J. Thomas
Armed Police Inspector
KAP 4 Bn., Mangattuparamba
Kerala

Shri C. Rajendran Nair
Inspector
CWS, Telecom Hqrs., Thiruvanthapuram
Kerala

Shri K. K. Raghavan
Assistant Sub-Inspector
Badiadka
Kerala

Shri Adarsh Katiyar
Senior Superintendent of Police
Bhopal
Madhya Pradesh

Shri D. Sreenivasa Rao
Senior Superintendent of Police
Indore
Madhya Pradesh

Shri G. Janardhan
Deputy Inspector General
Khargone
Madhya Pradesh

Shri Anil Kumar
Additional Secretary (Home)
Vallabh Bhawan, Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Ravi Kumar Gupta
Deputy Inspector General of Police
Balaghat Range, Balaghat
Madhya Pradesh

Shri Om Prakash Mittal
Superintendent of Police
SBI EO, Gwalior
Madhya Pradesh

Shri Balram Prasad Chandravanshi
Superintendent of Police
SPE, Sagar Division, Sagar
Madhya Pradesh

Shri Rameshwar Dayal Khare
Additional Superintendent of Police
Burhanpur
Madhya Pradesh

Shri Pyare Lal Visvaiya
Deputy Superintendent of Police
Planning PHQ, Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Ashok Kumar Patil
Deputy Superintendent of Police
Photo, CID PHQ, Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Vishwanath Singh Tomar
Platoon Commander
29th Bn. SAF, Datia
Madhya Pradesh

Shri Ram Kishore Tiwari
Constable
PS Traffic, Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Durga Prasad Chandpuria
Senior Constable
SBIEO, Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Madhu Mangal Gautam
Inspector (M)
Special Branch, PHQ, Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Arvind Kumad Tiwari
Inspector (OS)
G. B. Police Hqrs, Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Dhananjay Dattatray Kamlakar
Additional Commissioner of Police
Pune City
Maharashtra

Shri Sanjeev Kumar Singhal
Additional Commissioner of Police
Pune City
Maharashtra

Shri Sanjay Saxena
Additional Commissioner of Police
Mumbai City
Maharashtra

Shri Ashutosh Karbhari Dumbre
Additional Commissioner of Police
Mumbai City
Maharashtra

Shri Deven Bharti
Additional Commissioner of Police
Mumbai City
Maharashtra

Shri Chhagan Hilal Wakade
Superintendent of Police
Nagpur Rural
Maharashtra

Shri Gajanan Goswami Juikar
Assistant Commissioner of Police
Traffic Branch, Thane City
Maharashtra

Shri Vilas Bhikaji Marathe
Assistant Commissioner of Police
Worli Division, Mumbai City
Maharashtra

Shri Baburao Mahadeorao Deshmukh
Assistant Commissioner
SID Mumbai
Maharashtra

Shri Mahadeorao Namdeorao Chavan
Senior Police Inspector
Chatushrungi P.S., Pune City
Maharashtra

Shri Yusuf Ramjan Bagwan
Police Inspector
Bhiwandi Taluka, P.S.-Thane Rural
Maharashtra

Shri Mohmadrafi Chandsaheb Khan
Police Inspector
M.T. Aurangabad
Maharashtra

Shri Rajendra Rampratap Thakur
Police Inspector
Kasturba P.S. Mumbai City
Maharashtra

Shri Dinakar Bhagwat Gangurde
Intelligence Officer
SID, Nashik
Maharashtra

Shri Chintaman Chindha Deore
Armed Assistant Sub Inspector
SRPF Gr.VI, Dhule
Maharashtra

Shri Dattatray Dhondiba Dange
Assistant Sub Inspector
Nagartal P.S., Ahmednagar
Maharashtra

Shri Dattatray Yallappa Handiphod
Assistant Sub Inspector
Miraj City, P.S.-Sangli
Maharashtra

Shri Ramchandra Dattatray Chaugale
Asstt. Sub Inspector
Nirmal Nagar, Police Station,
Mumbai City
Maharashtra

Shri Dinkar Chintaman Patil
Assistant Sub Inspector
SP Office, Jalgaon
Maharashtra

Shri Ghanshyam Ganpat Awari
Assistant Sub Inspector
Railway Nagpur
Maharashtra

Shri Lahu Patilbuwa Dherange
Assistant Sub Inspector
Railway Mumbai
Maharashtra

Shri Namdeo Bhika Jadhav
Assistant Sub Inspector
Panchavati P.S., Nashik City
Maharashtra

Shri Tanaji Kondiba Bhosale
Armed Assistant Sub Inspector
SRPF Gr.III Jalana
Maharashtra

Shri Babarao Daulatrao Patil
Assistant Sub Inspector
Wireless East Zone Nagpur
Maharashtra

Shri Ramesh Prabhakar Bhavar
Asstt. Sub Inspector
Panchavati P.S., Nashik City
Maharashtra

Shri Govindan Shashidharan Kodappadath
Armed Assistant Sub Inspector
SRPF Gr.III Jalna
Maharashtra

Shri Pratap Waman Shinde
Head Constable
Traffic Control Branch, Mumbai City
Maharashtra

Shri Sambhaji Sattu Talekar
Head Constable
Shirol P. S., Kolhapur
Maharashtra

Shri Shrikrishna Shamrao Soman
Head Constable
Police Control Room, Yavatmal
Maharashtra

Shri Kalmesh Ramu Sarolkar
Intelligence Officer
SID, Mumbai
Maharashtra

Shri Sadashiv Valu Bodke
Head Constable
SB(I) CID Mumbai City
Maharashtra

Shri Anilkumar Damodar Deshpande
Police Naik
Wireless Mumbai
Maharashtra

Shri Md. Chaoba
Inspector of Police
Lilong-PS
Manipur

Shri W. Bormani Singh
Subedar
2 Bn, MR, Imphal
Manipur

Shri Dharmendra Kumar Prasad
Reserve Inspector
1st MLP, Mawiong
Meghalaya

Shri Hira Bahadur Thapa
AB Constable
1st MLP, Mawiong
Meghalaya

Shri R. S. Liantluanga
O. C. Special
Narcotic P.S., Aizawl
Mizoram

Shri Lalzuithanga
Constable
Aizawl, DEF
Mizoram

Shri Richard Yimto
Senior Superintendent of Police
Longleng District
Nagaland

Shri Meren Jamir
Commandant
15 NAP (IR) Mahila Bn, Chumukedima,
Nagaland

Shri Sidhartha Mahadu Narvane
Inspector General of Police
HR & SJ, PHQ, Cuttack
Orissa

Shri Prafulla Chandra Barik
Superintendent of Police
Nabarangpur
Orissa

Shri Girish Kumar Khatua
Commandant
6th Bn. OSAP, Cuttack
Orissa

Shri Bijaya Kumar Dash
Deputy Superintendent of Police
Spl. Branch, Puri
Orissa

Shri Ganesh Kumar Sahu
Deputy Commandant
SOG, Bhubaneswar
Orissa

Shri Gopal Chandra Nathasharma
Inspector
Special Branch, Cuttack
Orissa

Shri Niranjan Behera
Sub Inspector
Vigilance Directorate, Cuttack
Orissa

Shri Bipin Bihari Mishra
Havildar
Reserve Office, Koraput
Orissa

Shri Sharad Satya Chauhan
Deputy Inspector General of Police
Jalandhar Range
Punjab

Shri Inder Mohan Singh
Superintendent of Police
Muktsar
Punjab

Shri Opinderjit Singh Ghuman
Assistant Inspector General of Police
Counter Intelligence, Jalandhar
Punjab

Shri Ashwani Kapur
Assistant Inspector General of Police
Personnel-II, Chandigarh
Punjab

Shri Dharam Singh Uppal
Superintendent of Police
S B S Nagar
Punjab

Shri Des Raj
Deputy Superintendent of Police
Vigilance Bureau, Bhatinda
Punjab

Shri Balraj Singh Gill
Deputy Superintendent of Police
Sahnewal, Ludhiana City
Punjab

Shri Lakhbir Singh
Deputy Superintendent of Police
CID Unit, Sas Nagar (Mohali)
Punjab

Shri Sukhjeet Singh
Inspector
Incharge Trg. School, Fatehgarh Sahib
Punjab

Shri Deepak Rai
Sub Inspector
Intelligence Hqrs, Chandigarh
Punjab

Shri Manjit Singh
Sub Inspector
PRTC, Jahan Khellan
Punjab

Shri Ashok Kumar
Sub Inspector
5 IRB, Amritsar
Punjab

Shri Sukhpal Singh
Assistant Sub Inspector
PS-Rajpura City, Distt-Patiala
Punjab

Shri Harjit Singh
Head Constable
Police Lines, Moga
Punjab

Shri Anil Paliwal
Deputy Inspector General of Police
ACB Jaipur
Rajasthan

Shri Surendra Kumar Gupta
Additional Superintendent of Police
CID (SSB) Jaipur
Rajasthan

Shri Om Prakash Kataria
Additional Superintendent of Police (HQ)
Jaipur Rural
Rajasthan

Shri Mohammed Farooque Khan
Deputy Superintendent of Police
Circle Officer Jhadol Distt-Udaipur
Rajasthan

Shri Raghuveer Singh
Company Commander
6 Battalion RAC Dholpur
Rajasthan

Shri Rajbahadur Singh Sikarwar
Inspector (Technical)
Police Tele Communication, Jaipur
Rajasthan

Shri Rehman Khan
Sub Inspector
M.T.O. Police Line Jodhpur City
Rajasthan

Shri Man Singh Khati
Sub Inspector
PS-Ashok Nagar Jaipur City (South)
Rajasthan

Shri Shiv Lal
Assistant Sub Inspector
Police Line, Jodhpur City
Rajasthan

Shri Abdul Moin Khan
Assistant Sub Inspector
PS-Dungerpur, GRP Ajmer
Rajasthan

Shri Rewanta Ram
Head Constable, RAC No. 06
PTC Jodhpur
Rajasthan

Shri Rajendra Singh
Head Constable
9 Bn. RAC Tonk
Rajasthan

Shri Devi Sahai
Head Constable
ACB Jaipur
Rajasthan

Shri Mahaveer Singh Rajput
Constable
5 Battalion RAC Ghat Gate Jaipur
Rajasthan

Shri Ashok Kumar Sundas
Additional Superintendent of Police
SAP, Pangthang, East Sikkim
Sikkim

Dr. C K Gandhirajan
Inspector General of Police
O/o DGP, HQ, Chennai
Tamil Nadu

Shri Rajesh Das
Inspector General of Police
Costal Security Groups, Chennai
Tamil Nadu

Shri K. P. Shanmugarajeswaran
Deputy Inspector General of Police
Tiruneveli Range
Tamil Nadu

Shri R. Ilango
Superintendent of Police
Civil Supplies CID, Madurai Zone, Madurai
Tamil Nadu

Shri M. John Chelliah
Additional Superintendent of Police
PEW, Theni District
Tamil Nadu

Shri M. Jeyaraman
Deputy Superintendent of Police
Periyakulam Sub Division, Theni District
Tamil Nadu

Smt. P. S. Saavithiri
Deputy Superintendent of Police
Control Room O/o The DGP, Chennai
Tamil Nadu

Shri N. Rajendran
Deputy Superintendent of Police
V&A.C., Chennai City-II, Nandanm, Chennai-35
Tamil Nadu

Shri K. Sridhran
Inspector
SB CID, Trichy Airport Immigration
Tamil Nadu

Shri P. Rajkumar
Inspector
SB CID, Headquarters, Chennai
Tamil Nadu

Shri T. Gnanasekar
Inspector
V&A.C., Coimbatore
Tamil Nadu

Shri G. Balasubramanian
Inspector
V&A.C. Spl. Inves. Cell, Chennai
Tamil Nadu

Shri R. Pandiarajan
Inspector
V&A.C. Sivagangai
Tamil Nadu

Shri S. Rathinavelu
Sub Inspector
Pudupet, PS, Cuddalore District
Tamil Nadu

Shri V. Amirtharaj
Sub Inspector
V&A.C. Kanyakumari
Tamil Nadu

Shri V. Veerasamy
Head Constable
District Special Branch, CID, Thanjavur District
Tamil Nadu

Shri G. Kothandapani
Head Constable
V&A.C. Spl. Inves. Cell Chennai
Tamil Nadu

Shri Biswanath Debbarma
Deputy Inspector General of Police
(Adm & Trg), PO. AD Nagar, Agartala
Tripura

Shri Swapan Kumar Dey
Deputy Inspector General of Police
SB, Agartala
Tripura

Shri Ratan Kumar Deb
Sub Inspector
K.T.D.S., PTC, Narsingarh,
Tripura

Shri Girish Prasad Sharma
Inspector General of Police
Crime, Hqrs Director General of Police Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Dipesh Juneja
Deputy Inspector General/Sr. Supdt. of Police
Agra
Uttar Pradesh

Shri Rajeev Sabharwal
Deputy Inspector General of Police
ATS Zone, Allahabad at Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Gholar Prasad Kanaujia
Commandant
37th Bn PAC, Kanpur Nagar
Uttar Pradesh

Shri Vinod Kumar Dohrey
Senior Superintendent of Police
Jhansi
Uttar Pradesh

Shri Ram Bharosey
Superintendent of Police
Bahraich
Uttar Pradesh

Shri Kamal Krishna Sharma
Deputy Superintendent of Police
CB, CID, Meerut
Uttar Pradesh

Shri Ramesh Pratap Singh
Assistant Commandant
10 Bn, PAC Barabanki
Uttar Pradesh

Shri Chandra Shekhar Gupta
Deputy Superintendent of Police
Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Ramesh Chandra Tripathi
Deputy Superintendent of Police
Liu Distt. Faizabad
Uttar Pradesh

Shri Ambesh Chandra Tyagi
Deputy Superintendent of Police
Distt. Gautam Budh Nagar
Uttar Pradesh

Shri Bal Kishore Tyagi
Assistant Commandant
43 Bn, PAC Etah
Uttar Pradesh

Shri Karrar Husain
Deputy Superintendent of Police
Z.O. Int, Aligarh
Uttar Pradesh

Shri Ram Lal Rai
Deputy Superintendent of Police
Distt. Hardoi
Uttar Pradesh

Shri Suresh Chandra Sharma
Deputy Superintendent of Police
EOW. Hq. Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Udaivir Singh Khokhar
Deputy Superintendent of Police
Distt. Moradabad
Uttar Pradesh

Shri Peter Vijay Kumar
Deputy Superintendent of Police
C.M. Security, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Bhagwat Singh Motla
Deputy Superintendent of Police
PTS, Meerut
Uttar Pradesh

Shri Ayodhya Prasad Jatav
Deputy Superintendent of Police
Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Raghupal Singh
Head Constable
CB, CID Hqrs, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Ramnath Singh
Head Constable
26 Bn. PAC, Gorakhpur
Uttar Pradesh

Shri Abdul Salam
Head Constable (MT)
30 Bn, PAC, Gonda
Uttar Pradesh

Shri Kulwant Singh Tomar
Platoon Commander
9th Bn, PAC, Moradabad
Uttar Pradesh

Shri Hira Lal Yadav
Constable Driver
Distt. Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Tanveerul Husain Rizvi
Sub Inspector (M)
Police Hqrs, Allahabad
Uttar Pradesh

Shri Mohd. Hayat Khan
Head Constable (MT)
37 Bn, PAC Kanpur
Uttar Pradesh

Shri Ram Dhyani Singh
Sub Inspector
I.G. Range Office, Varanasi
Uttar Pradesh

Shri Parameshwar Ram
Head Constable
Distt.-Deoria
Uttar Pradesh

Shri Jagat Prakash Mishra
Constable
Distt.-Hardoi
Uttar Pradesh

Shri Radhey Shyam Singh
Sub-Inspector
L.I.U. Kanpur Nagar
Uttar Pradesh

Shri Kushal Pal Singh
Sub-Inspector
UPPCL, Vigilance Wing Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Ram Bahadur
Sub-Inspector
Distt.-Mirzapur
Uttar Pradesh

Shri Shiv Ram Katheriya
Constable
EOW, CID Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Shyam Lal
Sub-Inspector
Int. HQ, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Ajay Rautela
Commandant
40 Bn PAC, Haridwar
Uttarakhand

Shri Jagdish Singh Aswal
Deputy Superintendent of Police
Uttarkashi
Uttarakhand

Shri Arvind Dangwal
Inspector
Vigilance Hqrs, Dehradun
Uttarakhand

Shri Dilip Bandyopadhyay
Deputy Commissioner of Police
Traffic Department, Kolkata
West Bengal

Shri Bashab Kumar Talukdar
Deputy Inspector General of Police
PHQ, Kolkata
West Bengal

Shri Saroj Kumar Gazmer
Senior Deputy Commissioner of Police
B.G. Line 3rd Bn. KAP, Kolkata
West Bengal

Shri Sheikh Mohammed Kalimuddin
Inspector
Alipore PS, Kolkata
West Bengal

Shri Saral Kumar Mitra
Sub-Inspector
South Division Deputed to STF, Kolkata
West Bengal

Shri Abani Kumar Das
Inspector
RI, BEF Lines
West Bengal

Shri Aloke Kumar Sanyal
Inspector
Traffic Department, Kolkata
West Bengal

Shri Sadhan Kumar Patitundi
Sub-Inspector
6 Bn. KAP BG Lines, Kolkata
West Bengal

Shri Sudhansu Sekhar Banerjee
Sub-Inspector
Para-PS, Purulia
West Bengal

Shri Narayan Chandra Ghosh
Head Police Driver
MT Section, Berhampur, Murshidabad,
West Bengal

Shri Santi Chakladar
Assistant Sub-Inspector (AB)
Police Lines, Distt.-Cooch Behar
West Bengal

Shri Gopal Debnath
Constable
Int. Branch, Kolkata
West Bengal

Shri Ramesh Chandra Sharma
Assistant Sub-Inspector (Armed)
Brig. HQ. BG Lines, Kolkata
West Bengal

Shri Bhim Chowdhury
Constable
Police Training College, Barrackpore
West Bengal

Shri Tapan Kumar Majumder
Assistant Sub-Inspector
Sap 2 Bn. Barrackpore, 24 North Parganas
West Bengal

Shri Prasun Kumar Mukherjee
Assistant Sub-Inspector
DIG (MR) Office, Nadia
West Bengal

Shri Sahadat Hossain
Regular Constable
Head Quarters, Murshidabad
West Bengal

Shri Raghu Nath Saha
Armed Assistant Sub-Inspector
DAP Police Line, Malda
West Bengal

Smt. Sabita Banerjee
Lady Constable
DIB, Hoogly
West Bengal

Shri George Lalu
Assistant Commandant
IR Bn, Port Blair
Andaman and Nicobar Islands

Shri B. Saigal
Assistant Commandant
IR Bn, Anarkali Hadoo, Port Blair South Andaman
Andaman and Nicobar Islands

Shri Hardeep Singh Doon
Superintendent of Police
(Security & Traffic), Sector-9
Chandigarh

Shri M. Girishkumar
Head Constable
Kavaratti
Lakshadweep

Shri Nalillakaran Hemachandran
Sub-Inspector
Office of DGP
Puducherry

Shri Deep Narayan Sharma
Subedar
Kohima, C/o 99 APO
Assam Rifles

Shri Balwant Singh
Staff Officer-3, (Q)
Keithalmanbi, HQ-9, Manipur
Assam Rifles

Shri B. Vijaya Kumar
Assistant Commandant
Dimapur, 24 AR, C/o 99 APO
Assam Rifles

Shri Rajender Singh
Battalion Havildar Major
32 AR, C/o 99 APO, Jalukie, Nagaland
Assam Rifles

Shri Rem Bahadur Tahapa
Subedar
34 AR, Teliamura, C/o 99 APO
Assam Rifles

Shri Dhan Bahadur Sunar
Subedar
34 AR, C/o 99 APO, Teliamura,
Assam Rifles

Shri Jayaprakash M.V.
Havildar/Nursing Assistant
AR Hospital, Shillong
Assam Rifles

Shri Saseendran Mattathattil
Administrative Officer
(Deployed with UN Mission in Haiti)
Assam Rifles

Shri Subrata Das
Senior Private Secretary
Shillong
Assam Rifles

Dr. Bhawani Shanker Pandey
Inspector General/Director (Med.)
R. K. Puram, Sec. I, New Delhi
Border Security Force

Shri Parminder Singh Kainth
Deputy Inspector General
FTR HQ, Gujarat, Gandhinagar
Border Security Force

Shri S. Prakash Tiwari
Commandant
Tactical Wing, BSF Academy, Tekanpur
Border Security Force

Shri Mukul Srivastava
Commandant
BTC Indore, Bijasan Road, Indore
Border Security Force

Shri Satendra Singh Tanwar
Commandant
BSF Airwing, Safadarjang Air Port, New Delhi
Border Security Force

Shri Pramod Kumar Yadav
Commandant
11 Bn. P.O.-Gandhidham, Distt.-Kutch, Gujrat
Border Security Force

Shri Chandra Prakash Trivedi
Commandant
53 Bn PO-Adipur Gandhidham, Distt.-Kutch, Gujarat
Border Security Force

Shri Yadvendra Mani Upadhyay
Commandant
FHQ, CGO Complex, New Delhi
Border Security Force

Dr. Tapan Biswas
Chief Medical Officer (SG)
Composite Hospital, Kolkata
Border Security Force

Shri Vijay Singh Yadav
Commandant/Law Officer Gde-I
HQ Kashmir FTR, C/o 56 APO
Border Security Force

Shri Deepak Chaturvedi
Commandant/Law Officer Gde-I
FHQ, New Delhi
Border Security Force

Shri M. P. S. Rana
Second-in-Command
SHQ Bandipur, C/o 56 APO
Border Security Force

Shri Harish Singh
Second-in-Command
SHQ, Udaipur, PO-Santir Bazar, Distt.-Tripura(S)
Border Security Force

Shri Kundan Singh Khatri
Deputy Commandant
80 Bn., Sadki Road, Fazilka, Distt.-Ferozpur, Punjab
Border Security Force

Shri Devinder Kumar
Deputy Commandant
153 Bn., Shikar, PO-DBN, Distt.-Gurdaspur, Punjab
Border Security Force

Shri N. Prabhakaran
Deputy Commandant
STC, Yelahanka, PO-AFS, Bangalore
Border Security Force

Shri Bharat Singh
Deputy Commandant
109 Bn., PO-Madhampur, Distt.-Gurdaspur, Punjab
Border Security Force

Shri Raja Ram Singh
Deputy Commandant
60 Bn., PO-Khajuwala, Distt.-Bikaner, Rajasthan
Border Security Force

Shri Hari Kumar Chanda
Deputy Commandant (Civil)
FTR HQ, Campus, Jalandhar Cantt., Punjab
Border Security Force

Shri Man Mohan Singh
Assistant Commandant
121 Bn., Prahari Nagar, PO-Arai Mile,
Distt.-West Garo Hills, Meghalaya
Border Security Force

Shri Tajinder Singh
Assistant Commandant
45 Bn., Bhondsi, Distt.-Gurgaon, Haryana
Border Security Force

Shri Rajagopalan Nair
Assistant Commandant (Min.)
CSWT, Indore, Bijasan Road, Indore
Border Security Force

Shri Om Prakash Malik
Section Officer
Trg. Dte. FHQ, CGO Complex, New Delhi
Border Security Force

Shri Param Singh
Inspector
37 Bn., PO-Dhubulia, Distt.-Nadia, West Bengal
Border Security Force

Shri Sri Ramji Pandey
Inspector
94 Bn., Kalyani, Nadia, West Bengal
Border Security Force

Shri Paramasivan Ramaiah
Inspector
82 Bn., PO-Karahalli, Bangalore
Border Security Force

Shri Rai Singh
Inspector
66 Bn., Barmer Road, Jaisalmer, Rajasthan
Border Security Force

Shri Narain Singh
Inspector
99 Bn., Dantiwada
Border Security Force

Shri AN Singh Bisht
Inspector
107 Bn., PO-BSF Campus, Chiloda Road,
Gandhinagar
Border Security Force

Shri Ettimattathil Sivraman Mohanan
Inspector (Min)
STC, PO-Yelahanka, AFS, Bangalore
Border Security Force

Shri Rajinder Singh Pathania
Inspector (Min.)
FTR HQ, Kolkata
Border Security Force

Shri Mulackal Govindan Vimalan
Inspector/PA
BSF Academy, Teakanpur, Gwalior (MP)
Border Security Force

Smt. Sudesh Rodey
Steno Grd-II
Prov Det, FHQ, New Delhi
Border Security Force

Shri Suraj Mal
Sub-Inspector
153, Bnb., Sikar, PO-Derababananak, Distt.-Gurdaspur
Border Security Force

Shri Hemant Kumar Rai
Sub Inspector
42 Bn., Seemanagar, Distt.-Nadia (WB)
Border Security Force

Shri Raj Nath Singh
Sub-Inspector
100, Bn., Dabla, Jaisalmer, Rajasthan
Border Security Force

Shri Sohan Lal
Sub-Inspector
SHQ, Bikaner, Rajasthan
Border Security Force

Shri Inder Singh
Sub Inspector
O/o DIG (HQ), R. K. Puram, New Delhi
Border Security Force

Shri Arvind Kumar Das
Sub-Inspector (Pharmacist)
Composite Hospital, TC&S, Hazaribagh,
Jharkhand
Border Security Force

Shri Abdul Mazid Khan
Head Constable
82 Bn., PO-Karahalli, Bangalore
Border Security Force

Shri Mihir Lal Hazang
Constable/Cook
CSWT Indore, Indore, MP
Border Security Force

Shri Matindra Marak
Constable(W/C)
82 Bn., PO-Karahalli, Bangalore
Border Security Force

Shri Duraisamy A.
Constable (W/M)
STC, Yelahanka, PO-AFS, Bangalore
Border Security Force

Shri Trilok Chand Singh
Sweeper
64 Bn., Anupgarh, Distt.-Sriganganagar
Border Security Force

Shri Syed Javaid Mujtaba Gillani
Deputy Director (Admn.)
Hq, New Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Sujeet Pandey
Deputy Inspector General of Police
CBI Academy, Ghaziabad
Central Bureau of Investigation

Shri Heimonlang Nongpluh
Deputy Inspector General of Police
ACB, Guwahati
Central Bureau of Investigation

Shri Harish Chander Sharma
Additional Superintendent of Police
ACB, Shillong
Central Bureau of Investigation

Shri Sushil Prasad Singh
Deputy Superintendent of Police
ACB, Pune
Central Bureau of Investigation

Shri Prashant Kumar Pande
Deputy Superintendent of Police
ACB, Ranchi
Central Bureau of Investigation

Shri Roshan Lal Yadav
Inspector
EOU-VII, Delhi
Central Bureau of Investigation

Smt. Suresh Balyan Kumra
Inspector
ACB, Mumbai
Central Bureau of Investigation

Smt. Shama Maruf
Inspector
ACB, Dehradun
Central Bureau of Investigation

Shri S. Padmanathan
Sub-Inspector
ACB, Chennai
Central Bureau of Investigation

Shri Sambhu Nath Das
Sub-Inspector
SCB, Kolkata
Central Bureau of Investigation

Shri Pan Singh Bisht
Head Constable
EO-II, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Vasu Kavidas
Head Constable
HQ, New Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri S. Ravi
Constable
SCB, Chennai
Central Bureau of Investigation

Shri Om Prakash Bishnoi
Constable
HQ, New Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Jitendra Singh Negi
Senior Commandant
Unit CSIA (M)
Central Industrial Security Force

Shri Nand Gopal Gupta
Senior Commandant
Unit Raps/HWP, Post-Anushakti, Distt.-Chittorgarh
Central Industrial Security Force

Shri Hem Raj Gupta
Senior Commandant
Unit DMRC, Shastri Park, New Delhi
Central Industrial Security Force

Shri M. Rajendran
Commandant
Unit ISP Nasik, Maharashtra
Central Industrial Security Force

Shri Rajan Ramaswamy
Commandant
CTPS Chandrapura, Distt.-Bokaro Jharkhand
Central Industrial Security Force

Shri Naval Kumar
Deputy Commandant
Unit CSI Airport, Mumbai
Central Industrial Security Force

Shri Gagan Bihari Rout
Inspector
Unit BSL, Bokaro
Central Industrial Security Force

Shri T. P. Raghavaiah
Inspector
Unit, NLC Neyveli, G-14
Central Industrial Security Force

Shri Banshi Dhar Stapathy
Sub-Inspector (Min)
Unit, BSL Bokaro
Central Industrial Security Force

Shri N. D. Rajan
Sub-Inspector (Min)
NZ Hqrs, Saket, New Delhi
Central Industrial Security Force

Shri Markandey Pandey
Sub-Inspector
BCCL CCWO, Dhanbad
Central Industrial Security Force

Shri Jai Prakash Ram
Assistant Sub-Inspector
CSI Airport, Mumbai
Central Industrial Security Force

Shri Nakul Chandra Mondal
Assistant Sub-Inspector
Unit Oil Duliajan, Distt.-Dibrugarh, Assam
Central Industrial Security Force

Shri Vijay Kumar
Head Constable
CSI Airport, Mumbai
Central Industrial Security Force

Shri P. Kuppan
Head Constable
Unit NLC, Neyveli
Central Industrial Security Force

Shri S. Nagabhushanam
Head Constable
RTC Arakkonam, Post-Suraksha Campus
Distt.-Vellore (T. N.)
Central Industrial Security Force

Shri Deva Kanta Neog
Head Constable
Unit Oil Duliajan, Distt.-Dibrugarh, Assam
Central Industrial Security Force

Shri Singamanevi Venkateswara Rao
Head Constable
Unit RCFL, Mumbai
Central Industrial Security Force

Shri Gajraj Singh
Head Constable
NISA Hyderabad
Central Industrial Security Force

Dr. Anil Kumar Dhawan
Inspector General/Director (Med.)
FHQ, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Sikandar
Deputy Inspector General of Police
Group Centre, Allahabad
Central Reserve Police Force

Shri Gautam Kumar Datta
Deputy Inspector General of Police
O/o IGP, Eastern Sector, Saltlake, Kolkata
Central Reserve Police Force

Shri Taj Mohamad
Deputy Inspector General of Police
O/o IGP, North Western Sector, Chandigarh
Central Reserve Police Force

Shri Mahabir Singh Shekhawat
Deputy Inspector General of Police
Group Centre, Neemuch
Central Reserve Police Force

Dr. Prem Narain
Deputy Inspector General (Med.)
Composite Hospital, Allahabad
Central Reserve Police Force

Dr. Sukh Dev Singh
Deputy Inspector General (Med.)
Composite Hospital, Dayapur
PO-Udharband, Distt.-Silchar
Assam
Central Reserve Police Force

Dr. (Smt.) S. Sujata
Chief Medical Officer (NMSG)
Composite Hospital Rangareddy
Central Reserve Police Force

Shri Umesh Babu Mishra
Commandant
69 Bn. Imphal, Manipur
Central Reserve Police Force

Shri K. Rajendran
Second-In-Command
GC, Pallipuram, Thiruvananthapuram
Kerala
Central Reserve Police Force

Shri Desraj
Second-In-Command
191, Desaijanj, Garhchiroli
Maharashtra
Central Reserve Police Force

Shri Jagat Singh Ahlawat
Second-In-Commandant
140 Bn. Industrial Area, Kumarghat
North Tripura
Central Reserve Police Force

Shri Ranbir Singh Jaggi
Second-In-Command
O/o IGP, Manipur and Nagaland Sector
Imphal
Central Reserve Police Force

Shri N. Sasi Kumar
Second-In-Command
3rd Bn. Srinagar
Central Reserve Police Force

Shri Madhu Bhushan Sharma
Deputy Commandant
FHQ, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Rishikesh Singh Chauhan
Deputy Commandant
27 Bn. Bawana Camp, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Manphool Singh Yadav
Deputy Commandant
Group Centre, Neemuch
Central Reserve Police Force

Shri Kanwar Singh
Deputy Commandant
74 Bn. Bhoop Nagar, Kishtwar
Central Reserve Police Force

Shri A. P. Adyanthaya
Assistant Commandant
1st Signal Bn. Jharoda, Kalan,
New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri N. D. Mathew
Assistant Commandant
26 Bn. Bokaro, Jharkhand
Central Reserve Police Force

Shri Harish Babu
Assistant Commandant
3rd Signal Bn. Salt Lake, Kolkata
Central Reserve Police Force

Shri Ramphool Sharma
Assistant Commandant
16 Bn. Civil Line, Mathura (U.P.)
Central Reserve Police Force

Shri K. V. Madhusoodanan
Joint Assistant Director
FHQ, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Swaran Singh
Section Officer
FHQ, Training Branch, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Hem Raj Sharma
Adm. Officer
O/o IGP Tripura, SHQ, Agartala
Central Reserve Police Force

Shri Vadakke Kara Gopalakrishnan
Senior Private Secretary
FHQ, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Mussayed Syed Hussain
Inspector
180 Bn. TRAL, Distt. Pulwama
C/o 56 APO
Central Reserve Police Force

Shri Md. Saleem
Inspector
170 Bn. Bijapur, Chhatisgarh
Central Reserve Police Force

Shri Nasib Singh
Inspector
Group Centre, Pinjore, Haryana
Central Reserve Police Force

Shri Darshan Kumar
Inspector (CRPTO)
B/5 Signal Bn. Bantalab (J&K)
Central Reserve Police Force

Shri S. Vara Prasad Rao
Inspector (CRPTO)
D/5 Signal Bn. C/o 56 APO
Central Reserve Police Force

Smt. Geethamma S.
Inspector (Mahila)
88(M) Bn.
Central Reserve Police Force

Shri K. Raghavan Vikraman Nair
Sub-Inspector
Group Centre, Yelahanka, Bangalore
Central Reserve Police Force

Shri Patiram Singh Yadav Sub-Inspector 2nd Bn. Sabri Nagar, Dantewada Chhattisgarh Central Reserve Police Force	Shri Govindan Kumaraswamy Head Constable 143 Bn. Lamphelpat, Imphal West Manipur Central Reserve Police Force
Shri Dudheshwar Singh Sub-Inspector 79 Bn. Srinagar, J&K Central Reserve Police Force	Shri Kullamuniyan Vadivelu Head Constable 24 Bn. Jawahar Tunnel, Yatriniwas C/o 56 APO (J&K) Central Reserve Police Force
Shri Gopal Chandra Kar Sub-Inspector 139 Bn. Narayanpur, Bastar, Chhattisgarh Central Reserve Police Force	Shri Janardhan Singh Head Constable 178 Bn. C/o 56 APO, J&K Central Reserve Police Force
Shri Hari Singh Sub-Inspector Central Training College, Neemuch, M.P. Central Reserve Police Force	Shri Ashok Kumar Head Constable/Tailor GC, Khatkhati, Distt.-Karbi Anglong, Assam Central Reserve Police Force
Shri Mali Ram Sharma Sub-Inspector N.E. Sector, Shillong Central Reserve Police Force	Shri Moti Lal Sankala Constable/Daftry FHQ, New Delhi Central Reserve Police Force
Shri Prasanna Kumaran Nair Sub-Inspector 78 Bn. Zubza, Kohima, Nagaland Central Reserve Police Force	Shri K. Angom Kom Constable Group Centre, Langjing, Imphal Central Reserve Police Force
Shri Madan Lal Sub-Inspector Group Centre, Ajmer Central Reserve Police Force	Shri Jagmohan Ram Cook 50 Bn. Group Centre, Sindri, Dhanbad, Jharkhand Central Reserve Police Force
Smt. Anarkali Sood Sub-Inspector (Mahila) 99 Raf, Hyderabad Central Reserve Police Force	Shri Minja Naik Safai Karamchhari 66 Bn. Group Centre, Mokamaghat PO-Aunta, Bihar Central Reserve Police Force
Smt. Kailash Ahuja Sister In-Charge Composite Hospital, G. C., Jharoda Kalan New Delhi Central Reserve Police Force	Shri B. Bhanu Water Carrier 79 Bn. Srinagar Central Reserve Police Force
Shri Soonama Samuel Lab. Technician Composite Hospital, G. C., Jharoda Kalan New Delhi Central Reserve Police Force	Shri Prem Singh Washer Man 88 (M) Bn. Dwarka, Sector-8, New Delhi Central Reserve Police Force
Shri Moti Ram Head Constable GC, Greater Noida, Distt.-G.B. Nagar (UP) Central Reserve Police Force	Shri Man Singh Deputy Director DRTC, Shivpuri Ministry of Home Affairs
Shri Kamkholal Singnit Head Constable Group Centre, Langjing Imphal Central Reserve Police Force	Dr. Dayal Singh Burfal Chief Medical Officer Hqrs. New Delhi Ministry of Home Affairs
	Shri Deo Prakash Mishra Joint Deputy Director/Technical Hqrs. new Delhi Ministry of Home Affairs

Shri C. V. Venkatraman
Assistant Director
Hqrs. New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Pradeep Kumar Dubey
Assistant Director
Bhopal
Ministry of Home Affairs

Shri Chandrasekharan Ramachndran Nair
Assistant Director
Thiruvananthapuram
Ministry of Home Affairs

Shri Kashmir Singh
Assistant Director
Chandigarh
Ministry of Home Affairs

Shri Hari Nath
Assistant Director
Allahabad
Ministry of Home Affairs

Shri Suresh Chander Kukreti
Deputy Central Intelligence Officer
Haridwar
Ministry of Home Affairs

Shri Parvinder Pal Singh
Deputy Central Intelligence Officer
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Hareshamudram Raghavendra Prasad
Deputy Central Intelligence Officer
Bangalore
Ministry of Home Affairs

Shri Haro Prasad Sen
Section Officer
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Virendra Kumar
Assistant Central Intelligence Officer-I/G
Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Parminder Jit Sharma
Assistant Central Intelligence Officer-I/G
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Binay Kumar
Assistant Central Intelligence Officer-I/WT
Patna
Ministry of Home Affairs

Shri Azad Singh Solanki
Assistant Central Intelligence Officer-I/G
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Ved Kumar
Junior Intelligence Officer-I/G
Jammu
Ministry of Home Affairs

Shri Angrez Singh
Junior Intelligence Officer-I/G
Amritsar
Ministry of Home Affairs

Shri Anil Kumar Jandyal
Junior Intelligence Officer-I/G
Srinagar
Ministry of Home Affairs

Shri Pawan Pradhan
Junior Intelligence Officer-II/G
Aizawl
Ministry of Home Affairs

Shri Anil K. Gautam
Deputy Inspector General
FHQ, CGO Complex, New Delhi
Indo Tibetan Border Police

Shri Rajinder Singh
Second-In-Command
31st Bn. Yupia, Papumpare, Arunachal Pradesh
Indo Tibetan Border Police

Shri Dharam Singh
Assistant Commandant
Eastern Ftr. Hqr. Shillong
Indo Tibetan Border Police

Shri Hari Singh Negi
Assistant Commandant
Northern Ftr. Hqr. Dehradun
Indo Tibetan Border Police

Shri Bharat Raj
Inspector
9th Bn. C/o 99 APO
Indo Tibetan Border Police

Shri Devi Singh
Inspector
SHQ Tigri Camp, New Delhi
Indo Tibetan Border Police

Shri Alam Singh Rawat
Inspector
30th Bn. Mahidanda (Uttarakhand)
Indo Tibetan Border Police

Shri Harbans Lal Sharma
Inspector (CM)
FHQ, CGO Complex, New Delhi
Indo Tibetan Border Police

Shri Tashi Angroop
Constable
SPT Bn. Karera (MP)
Indo Tibetan Border Police

Shri Madhu Sudan Sharma Group Commander Hq. Manesar, Gurgaon National Security Guard	Shri Narendra Singh Security Officer-I Hq. New Delhi Special Protection Group
Shri Raj Kumar Assistant Commander-I/GD Hq. 13, SRG, Manesar, Gurgaon National Security Guard	Shri Suresh Kumar Rajial Security Officer-II (T) Hq. New Delhi Special Protection Group
Shri Chandresh Kumar Vashisht Assistant Commander-II (Min) Mehramnagar, New Delhi National Security Guard	Shri Balraj Singh Security Officer-I Hq. New Delhi Special Protection Group
Dr. M. S. Martolia Inspector General/Director (Med.) FHQ, New Delhi Sashastra Seema Bal	Shri Parveen Kumar Senior Security Assistant (MT) Hq. New Delhi Special Protection Group
Brig. V. J. S. Lidder Deputy Director (Tele) FHQ, New Delhi Sashastra Seema Bal	Shri Babu Daniel Sub Inspector Umsaw, umiam, Meghalaya North Eastern Police Academy
Shri Binod Nayak Commandant 25th Bn. Delhi Sashastra Seema Bal	Dr. Ravi Ambast Junior Analyst New Delhi Bureau of Police Research and Development
Shri Mahabir Singh Negi Deputy Commandant 29 Bn. Sashastra Seema Bal	Shri Surendra Prakash Gupta Steno Gr. II (PA) New Delhi Bureau of Police Research and Development
Shri Sanjeev Sharma Commandant FIHQ Sashastra Seema Bal	Shri Gyasi Ram Constable New Delhi Bureau of Police Research and Development
Shri Jiwan Chandra Pant Assistant Commandant TC. Salonibari Sashastra Seema Bal	Shri Satish Chandra Sharma Deputy Director New Delhi Directorate of Coordination Police Wireless
Shri P. C. Jaryal Section Officer FHQ, New Delhi Sashastra Seema Bal	Shri Ajay Gadkary Inspector (Finger Print) New Delhi National Crime Records Bureau
Shri Bir Singh Vidhyarthi Subedar Major FTR Hq. Patna Sashastra Seema Bal	Shri Shiv Karan Singh Bansal Deputy Superintendent of Police New Delhi National Human Rights Commission
Shri Heisnam Joy Singh Constable (Painter) 13th Bn. Piprakothi Sashastra Seema Bal	Shri P. Venkata Swamy Head Constable Hyderabad SVP N.P.A.
Shri Kamaljit Singh Banyal Assistant Inspector General Hq. New Delhi Special Protection Group	Shri Shaik Abdul Samad Head Constable Hyderabad SVP N.P.A.

Shri Sanjay Sharma
Assistant Commissioner of Security
New Delhi
M/o Civil Aviation

Shri Ramender Singh
Assistant Security & Personnel Officer
New Delhi
Ministry of External Affairs

Dr. K. S. Pratap Kumar
Director
NIFT, Madhapur, Cyberabad, Hyderabad
Ministry of Textiles

Shri Sunil Kumar Singh
Senior Divisional Security Commissioner
N. E. Railway, Varanasi
M/o Railways

Shri Rattan Chand
Senior Divisional Security Commissioner
Delhi West Division, New Delhi
M/o Railways

Shri Mohender Singh
Divisional Security Commissioner
Samastipur
M/o Railways

Shri Ved Prakash Gautam
Assistant Security Commissioner
New Jalpaiguri
M/o Railways

Shri Suresh Kumar
Ac-cum-Principal
RPSF, 2nd Bn. Rajahi Camp, Gorakhpur
M/o Railways

Shri Lekh Raj Sandhyana
Inspector
RPSF, 6 Bn. Dayabasti, Delhi
M/o Railways

Shri Nandji Singh
Inspector
Internal Vigilance Group, Zonal Hq. Bilaspur
M/o Railways

Shri Umesh Kumar Singh
Divisional Inspector
O/o Sr. DSC/Lucknow Jn.
M/o Railways

Shri Ram Kishan Sharma
Sub-Inspector
RPSF, 11Bn. Garhara, Begusarai
M/o Railways

Shri P. Madhava Rao
Sub-Inspector
Crime Cell, Sr. DSC Office, Waltair Division
Visakhapatnam
M/o Railways

Shri Md. Tajammul Hussain
Assistant Sub-Inspector/Armr
2nd Bn. RPSF/Gorakhpur
M/o Railways

Shri Abdul Majid Khan
Assistant Sub-Inspector
RPF Post Itwari
M/o Railways

Shri Gulshan Kumar Sharma
Head Constable
5th Bn. RPSF/Trichy
M/o Railways

Shri Sispal Singh
Head Constable
Railway Board Northern Railway
M/o Railways

Shri Pralay Kumar Pal
Head Constable
Howrah
M/o Railways

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rule governing the grant of Police Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 118-Pres/2010—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2010 to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers :—

Shri Sikandar Lal
Junior Staff Officer (CD)
Delhi

Shri Maninder Singh Dhir
Addl. Chief Warden (CD)
Delhi

Shri Ramesh Chander Chhazlaan
Dy. Chief Warden (CD)
Delhi

Shri Lachhman Singh Rawat
Dy. Chief Warden (CD)
Delhi

Shri Bhupal Singh Chauhan
Commandant (HG)
Himachal Pradesh

Shri Doddathimmaiah
MTJCO (HG)
Karnataka

Shri Bal Krishna Gautam
Subedar (M) (HG)
Madhya Pradesh

Shri Vinod Murlidhar Kolapkar
District Commandant (HG)
Maharashtra

Shri Vipin Kumar Uppal
Dy. Commandant General (HG)
Rajasthan

Shri Gayad Singh Rathore
Head Constable (HG)
Rajasthan

Shri G. S. Gaur
Junior Staff Officer (CD)
DGCD/MHA

Shri Kanwar Pal
Instructor (CD)
Delhi

Shri Ranbir Singh
Driver (CD)
Delhi

Shri Mam Raj
Demonstrator (HG)
Delhi

Shri Deepak Anand
Chief Warden (CD)
Delhi

2. These awards are made under rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service

BARUN MITRA
Jt. Secy.

Shri Salahuddin Mirza
Dy. Chief Warden (CD)
Delhi

Shri Gurudas Govind Kerkar
Asst. Section Leader (HG)
Goa

Shri Tarsem Lal
Havildar Instructor (HG)
Haryana

Shri Deep Ram Pundir
Commandant (HG)
Himachal Pradesh

Smt. Laja Devi
Company Commander (HG)
Himachal Pradesh

Shri Ishwar Veerabhadrappe Geddappanavar
Platoon Commander (HG)
Karnataka

Shri Karigowda Narayan
Instructor (HG)
Karnataka

Shri M. S. Suresh
Instructor (HG)
Karnataka

Shri Ram Naresh Jaiswal
Sepoy (HG)
Madhya Pradesh

Shri Santosh Kumar Bairagi
Divisional Warden (CD)
Madhya Pradesh

Shri Jitendra Chandrakant Raut
Second-in-Command (HG)
Maharashtra

Shri Dilip Mangal Jadhav
Coy. Sergeant Major (HG)
Maharashtra

No. 119-Pres/2010—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2010 to award the Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri Bhuban Saikia
Havildar Clerk (HG)
Assam

Shri Shyam Nath Singh
Chief Warden (CD)
Bihar

Shri Jayant Pratap Singh
Distt. Commandant (HG)
Bihar

Shri Lakshandeo Kumar Singh
Company Commander (HG)
Bihar

Shri Manish Kumar
Jamadar Head Clerk (HG)
Bihar

Shri Brij Kishor Saxena
Sub-Inspector (M) (HG)
Chhattisgarh

Shri Neelkantha Garhe
Asst. Sub-Inspector (HG)
Chhattisgarh

Smt. Malti Raikwar
Platoon Commander (HG)
Chhattisgarh

Smt. Rajni Shonik
Instructor (CD)
Delhi

Shri Sachin Gopichand Gawde
Instructor (HG)
Maharashtra

Shri Manohar Keshav Mhatre
Demonstrator (Trg) (HG)
Maharashtra

Smt. Jayshree Govind Kulkarni
Divisional Warden (CD)
Maharashtra

Shri De Barson Rymbai
Centre Commander (DTC) (HG)
Meghalaya

Shri Gagan Bihari Pradhan
Platoon Commander (HG)
Orissa

Shri Soubhagya Pradhan
Platoon Sergeant (HG)
Orissa

Shri Gurtej Singh Mahun
Leading Fireman (CD)
Rajasthan

Shri Om Prakash Dadheech
Head Constable (HG)
Rajasthan

Shri Bijender Singh
Dy. Controller (CD)
Rajasthan

Shri V. Nagarajan
Home Guard
Tamil Nadu

Shri Santi Debnath
Home Guard
Tripura

Shri Surendra Singh
Divisional Comdt. (HG)
Uttar Pradesh

Shri Santosh Kumar
Divisional Comdt. (HG)
Uttar Pradesh

Shri Raj Kishor
Distt. Commandant (HG)
Uttar Pradesh

Shri Ram Kunwar Verma
Sr. Noter Drafter (HG)
Uttar Pradesh

Shri Rajendra Singh
Company Commander (HG)
Uttar Pradesh

Shri Rampal Singh Ponia
Platoon Commander (HG)
Uttar Pradesh

Shri Shiv Kumar Trivedi
Block Organizer (HG)
Uttar Pradesh

Shri Yogendra Singh
Junior Instructor (HG)
Uttar Pradesh

Shri Ram Narayan
Havildar Instructor (HG)
Uttar Pradesh

Shri Rakesh Kumar Tiwari
Supdt. (Store) (CD)
Uttar Pradesh

Shri Santosh Kumar Srivastava
Divisional Warden (CD)
Uttar Pradesh

Shri Sarabjit Singh Kapoor
Staff Officer to CW (CD)
Uttar Pradesh

Shri Manoj Bansal
Dy. Divisional Warden (CD)
Uttar Pradesh

Shri Rabindra Nath Das
Sr. Staff Officer Instructor (CD)
West Bengal

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th October 2010

No. U-13019/3/2010-ANL—In terms of para 2(d) of Ministry of Home Affairs Notification No. U-13019/3/2010-ANL dated 4th June, 2010; the Union Home Minister has nominated the following persons as members of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Lakshadweep :

- (i) Smt. Sunitha Ismail, KRB,
Mini Manzil, Kavaratti-682555.
- (ii) Shri V. M. Shamsudheen
Shamzarath (H)
P.O. Agatti Island-682553

M. L. VARMA
Dy. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 6th October 2010

No. ERB-I/2009/23/22—Further to Ministry of Railways' Resolutions of even number dated 16-07-09, 12.11.2009, 08.02.2010, 22.03.2010 & 01.09.2010 regarding reconstitution of the Passenger Services Committee under the Chairmanship of Shri Derek O'Brien, 158, Prince Anwar Shah Road, Kolkata-

700045, Ministry of Railways have now decided that Shri Gautam Ghosh, S/o Late S. N. Ghosh, R/o 5/28, Netaji Nagar, Kolkata-700040 should be nominated as one of the Members of the Passenger Services Committee.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)